

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 19—अगस्त 25, 2017 (श्रावण 28, 1939)

No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 19—AUGUST 25, 2017 (SRAVANA 28, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 2017

थल सेना विभाग

सं. 157, दिनांक 6 जून 2017—थल सेना अनुदेश 37/78 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति 05 वर्ष की अवधि के लिए सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थाई कमीशन)

कमीशन की ज्येष्ठता

डीआर-10738एल मेजर (सुश्री) समरदीप कौर — 28-09-2011

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 28-03-2011 से दी जाती है। इसमें 06 माह अस्पताल में नियुक्ति के लिए दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।

04 अगस्त 2012 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहाँ तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति 05 वर्ष की अवधि के लिए सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
(अल्पकालीन कमीशन)
कमीशन की ज्येष्ठता

डी एस—12606डब्ल्यू कप्तान उमेश कुमार — 05-04-2016

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 05-10-2015 से दी जाती है। इसमें 06 माह अस्पताल में नियुक्ति के लिए दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।

12 नवम्बर 2016 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहाँ तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

डी एस—12594एम कप्तान नवजोत सिंह सासन — 21-01-2016

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 21-07-2015 से दी जाती है। इसमें 06 माह अस्पताल में नियुक्ति के लिए दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।

11 जून 2016 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहाँ तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अधीन और रक्षा मंत्रालय के पत्र सं 10(3)(प)/05/डी मेड, 28 अक्टूबर 2005 यथासंशोधित के अधीन राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति 05 वर्ष के लिए करते हैं :

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
(अल्पकालीन कमीशन)
कैप्टन के पद पर (परख पर)

निजी संख्या	रैंक व नाम	कमीशन की तिथि
डी एस—12614पी	कप्तान तुशार भार्गव	28-12-2016
डी एस—12615एक्स	कप्तान किरण श्रीनिवास रेड्डी एस	28-12-2016
डी एस—12616ए	कप्तान (सुश्री) मणि कंकणा डेका	28-12-2016
डी एस—12617एच	कप्तान नायर अजय शिवशंकरन	28-12-2016
डी एस—12618एल	कप्तान सिरसेन्दु घोष	28-12-2016
डी एस—12619एन	कप्तान (सुश्री) रम्याश्री एम	28-12-2016
डी एस—12620एच	कप्तान पुनीत डांग	28-12-2016
डी एस—12621एल	कप्तान साहिल वर्मा	28-12-2016
डी एस—12622एन	कप्तान हलवत रमेश	28-12-2016
डी एस—12623डब्ल्यू	कप्तान अंकुर शर्मा	28-12-2016
डी एस—12624वाई	कप्तान करन पाडा	28-12-2016
डी एस—12625एफ	कप्तान (सुश्री) गरिमा शर्मा	28-12-2016
डी एस—12626के	कप्तान अरविन्द रघुवंशी	28-12-2016

निजी संख्या	रैंक व नाम	कमीशन की तिथि
डी एस-12627एम	कप्तान आर दरणी	28-12-2016
डी एस-12628पी	कप्तान आदित्य रामभाई शर्मा	28-12-2016
डी एस-12629एक्स	कप्तान (सुश्री) शिवानी नारंग	28-12-2016
डी एस-12630एम	कप्तान रविंदर सिंह	28-12-2016
डी एस-12631पी	कप्तान देवाशीष	28-12-2016
डी एस-12632एक्स	कप्तान संदीप सिंह रियाल	28-12-2016
डी एस-12633ए	कप्तान सागर दहिया	28-12-2016
डी एस-12634एच	कप्तान अमलेन्दु बिकाश माईति	28-12-2016
डी एस-12635एल	कप्तान (सुश्री) सोफिया मैरी एंटनी	28-12-2016
डी एस-12636एन	कप्तान (सुश्री) अंजली प्रिया	28-12-2016
डी एस-12637डब्ल्यू	कप्तान रमेश राजेन्द्रन	28-12-2016
डी एस-12638वाई	कप्तान (सुश्री) ध्वनि तिवारी	28-12-2016
डी एस-12639एफ	कप्तान अक्षत चौधरी	28-12-2016
डी एस-12640डब्ल्यू	कप्तान (सुश्री) रिट्टि जेबा इ	28-12-2016
डी एस-12641वाई	कप्तान अखिल मित्तल	28-12-2016
डी एस-12642एफ	कप्तान (सुश्री) श्रुति मुखर्जी	28-12-2016
डी एस-12643के	कप्तान मोहित राणा	28-12-2016
डी एस-12644एम	कप्तान (सुश्री) गौरी	28-12-2016
डी एस-12645पी	कप्तान (सुश्री) अनुजा वर्मा	28-12-2016

के जी कुमार देवैया
ब्रिगेडियर
डीडीजीडीएस (पी)

थल सेना विभाग

सं. 158, दिनांक 7 जून 2017—थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति 05 वर्ष की अवधि के लिए सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:-

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अस्थाई कमीशन)

कमीशन की ज्येष्ठता

डी एस-12598एच कप्तान (सुश्री) अनु भारती — 21-01-2016

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 21-07-2015 से दी जाती है। इसमें 06 माह अस्पताल में नियुक्ति के लिए दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।

11 जून 2016 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहाँ तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

डी एस-12600पी कप्तान नितिन पान्डे — 21-01-2016

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 21-07-2015 से दी जाती है। इसमें 06 माह अस्पताल में नियुक्ति के लिए दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।

11 जून 2016 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहाँ तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

एच एस संधू
ब्रिगेडियर
डीडीजीडीएस (पी)

सेना शाखा

सं. 159, दिनांक 8 जून 2017—राष्ट्रपति निम्नलिखित पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

नियमित सेना
(अल्प सेवा आयोग)

लै0 के पद पर

निम्नलिखित 61 जेन्टलमैन कैडेट्स, जो कि अल्पकालीन सेवा आयोग (एन टी)-102 पाठ्यक्रम के हैं, उनको सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 10 सितम्बर 2016 से 10 वर्ष के लिए, विशेष सेनानुदेश 3/एस/98, यथा संशोधित, के अन्तर्गत (जोकि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पीसी/ए जी/पी एस-2(ए)डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) अल्पकालीन सेवा आयोग प्रदान किया जाता है :-

एस एस सं.		नाम	आर्म/सर्विस
एस एस-48833	एफ	डलोरंगम हरंगबंग अनल	इन्फैन्ट्री
एस एस-48836	पी	सुरेन्द्र सिंह	इंजिनियर्स
एस एस-48838	ए	लक्ष्य सैनी	आर्टी
एस एस-48840	एक्स	बी मनोज कुमार	मैक
एस एस-48841	ए	दिक्षित बाली	सिग्नलस
एस एस-48844	एन	प्रमोद जोशी	ए एस सी
एस एस-48848	के	आयुष कौशल	आर्टी
एस एस-48849	एम	अभिनव एस	आर्टी
एस एस-48853	पी	वेलिंग हर्ष जयंत	इन्फैन्ट्री
एस एस-48854	एक्स	लंका किरण कुमार	ई एम ई
एस एस-48855	ए	अमनदीप डेलू	इन्फैन्ट्री
एस एस-48856	एच	गौतम कृष्णा एम जी	इन्फैन्ट्री
एस एस-48858	एन	संतोष मुडलगी	आर्टी
एस एस-48859	डब्ल्यू	सचिन परमार	ए ओ सी
एस एस-48861	एन	अंकुश	आर्टी
एस एस-48863	वाई	निशांत शर्मा	इन्फैन्ट्री
एस एस-48868	एक्स	बिचकर अभिजीत राजेंद्र	आर्टी
एस एस-48875	एन	प्रदीप आर	आर्टी
एस एस-48876	डब्ल्यू	माणिक सिंह	मैक
एस एस-48878	एफ	हर्ष गौड	इन्फैन्ट्री
एस एस-48879	के	बोनी उपाध्याय	इन्ट
एस एस-48883	एम	अतुल कुमार	ई एम ई
एस एस-48884	पी	अविषेक पांथ्री	एविएशन
एस एस-48889	एन	हरी प्रसाद कैमल	इन्फैन्ट्री
एस एस-48890	एच	आशिष वर्मा	ए सी
एस एस-48891	एल	प्ररित शर्मा	आर्टी
एस एस-48892	एन	पाटिल अक्षय विजय	ई एम ई
एस एस-48893	डब्ल्यू	लव कुमार	जैग
एस एस-48896	के	रविकांत मेहरा	इन्फैन्ट्री
एस एस-48899	एक्स	शहबाज सिंह जोहल	ए सी

एस एस सं.		नाम	आर्म / सर्विस
एस एस-48900	एफ	अमित कुमार	इन्फैन्ट्री
एस एस-48904	एक्स	अभय शेणोय एन	मैक
एस एस-48906	एच	मोहम्मद अनस तालिब	ए ओ सी
एस एस-48908	एन	संदीप सिंह गुलिया	ए ए डी
एस एस-48910	एल	सचिन एस	आर्टी
एस एस-48911	एन	संदीप कुमार	इंजिनियर्स
एस एस-48912	डब्ल्यू	ऋषभ मिश्रा	आर्टी
एस एस-48914	एफ	आनन्द रामाकृष्णन	इन्फैन्ट्री
एस एस-48917	पी	श्रीधर ज	जैग
एस एस-48918	एक्स	अर्जुन क्रिष्णन	ई एम ई
एस एस-48920	पी	संजोत डेनियल ब्रिट एस	ए ए डी
एस एस-48923	एच	प्रशांत वि	आर्टी
एस एस-48925	एन	सबरीनाथ जे एस	आर्टी
एस एस-48926	डब्ल्यू	विकास लांबा	इन्फैन्ट्री
एस एस-48928	एफ	अजय जून	इन्फैन्ट्री
एस एस-48929	के	अर्पित श्रीवास्तव	ए ए डी
एस एस-48932	के	मनस्वी सिंह	मैक
एस एस-48933	एम	उमंग राठौर	आर्टी
एस एस-48935	एक्स	अवनीश कुमार पाण्डे	इंजिनियर्स
एस एस-48938	एल	सुकृत कृष्णन पि	आर्टी
एस एस-48940	एच	गुरप्रीत सिंह होरा	इन्फैन्ट्री
एस एस-48942	एन	मनमोहन सिंह रावत	ई एम ई
एस एस-48944	वाई	सात्विक ग्रोवर	जैग
एस एस-48949	एक्स	डवीन पाल देवूस	आर्टी
एस एस-48951	पी	उत्कर्ष चौधरी	जैग
एस एस-48952	एक्स	एम एम किरण गुप्ता	आर्टी
एस एस-48957	डब्ल्यू	नवदीप सिंह	आर्टी
एस एस-48958	वाई	अब्दुल इरफान	इन्फैन्ट्री
एस एस-48961	वाई	हृदयांशु गिल	इन्फैन्ट्री
एस एस-48964	एम	आदित्य राज सिंह	ए ओ सी
एस एस-48968	एच	आफताब सिंह	इन्फैन्ट्री

निम्नलिखित 40 जेन्टलमैन कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग (टैक)-45 पाठ्यक्रम के हैं, लेफ्टिनेंट के पद पर पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए जो आफिसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रशिक्षणरत हैं को उनके सम्मुख अंकित तिथि से अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही उनको दिनांक 10 सितम्बर 2016 से सेनानुदेश 1/93 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) 921/डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) 10 वर्ष के लिए अल्पकालीन सेवा आयोग प्रदान

किया जाता है। उन्हें दिनांक 13 सितम्बर 2015 से विशेष सेनानुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित, के अन्तर्गत तकनीकी योग्यता हेतु एक वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा प्रन्नति के लिये दी जाती है :-

एस एस संख्या		नाम	आर्म/सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
एस एस-48971	एच	शितिज सेकर	इन्फैन्ट्री	05 अक्टूबर 15
एस एस-48973	एन	राहुल विश्वास	ए एस सी	05 अक्टूबर 15
एस एस-48974	डब्ल्यू	अरुण ए	सिग्नलस	05 अक्टूबर 15
एस एस-48979	पी	सैय्यद अशद अहमद	इंजिनियर्स	05 अक्टूबर 15
एस एस-48989	वाई	आदित्य शर्मा	इंजिनियर्स	05 अक्टूबर 15
एस एस-48992	वाई	अजय कुमार चन्द	इंजिनियर्स	05 अक्टूबर 15
एस एस-48994	के	अवतार सिंह	इन्फैन्ट्री	05 अक्टूबर 15
एस एस-48998	ए	शेक आजाद हुसैन	आर्टी	05 अक्टूबर 15
एस एस-48999	एच	अभिषेक महाजन	आर्टी	05 अक्टूबर 15
एस एस-49000	के	कण्णन एस	एविएशन	05 अक्टूबर 15
एस एस-49001	एम	आशिम	एविएशन	05 अक्टूबर 15
एस एस-49003	एक्स	अमित सिंह	ई एम ई	05 अक्टूबर 15
एस एस-49004	ए	नवनीत सिंह	इंजिनियर्स	05 अक्टूबर 15
एस एस-49005	एच	आकाश भाटली	इन्फैन्ट्री	05 अक्टूबर 15
एस एस-49012	वाई	वंषय कपूर	मैक	05 अक्टूबर 15
एस एस-49013	एफ	श्रीकांत संतोष	इंजिनियर्स	05 अक्टूबर 15
एस एस-49015	एम	हरमनजीत सिंह	इन्फैन्ट्री	06 अप्रैल 15
एस एस-49016	पी	जितिन के अजित	सिग्नलस	05 अक्टूबर 15
एस एस-49023	एल	अन्तरप्रीत सिंह	इन्फैन्ट्री	06 अप्रैल 15
एस एस-49028	के	हेमंत शर्मा	ई एम ई	05 अक्टूबर 15
एस एस-49029	एम	गौरव तिवारी	आर्टी	05 अक्टूबर 15
एस एस-49030	एफ	करेईगणडेइशवरन ब	आर्टी	05 अक्टूबर 15
एस एस-49033	पी	अक्षय रस्तोगी	मैक	05 अक्टूबर 15
एस एस-49036	एच	हरेन्द्र सिंह	ई एम ई	05 अक्टूबर 15
एस एस-49037	एल	ऐ के एस कोगुल	आर्टी	05 अक्टूबर 15
एस एस-49040	एल	शैबाज ताबुल नाईक	ए सी	05 अक्टूबर 15
एस एस-49043	वाई	रवि कुमार सिंह जादौन	ए ओ सी	05 अक्टूबर 15
एस एस-49047	पी	शुभम् जायसवाल	इंजिनियर्स	05 अक्टूबर 15
एस एस-49050	पी	देवेश सिंह कटियार	एविएशन	05 अक्टूबर 15
एस एस-49051	एक्स	अंकित अहुजा	एविएशन	05 अक्टूबर 15
एस एस-49053	एच	कार्तिकेयन वी	ई एम ई	05 अक्टूबर 15
एस एस-49056	डब्ल्यू	देशमुख अजिंक्य विजय	इंजिनियर्स	05 अक्टूबर 15
एस एस-49062	के	दीपक अहलावत	इन्फैन्ट्री	05 अक्टूबर 15
एस एस-49063	एम	अनमोल शर्मा	इन्फैन्ट्री	05 अक्टूबर 15
एस एस-49065	एक्स	सक्तिवेल वी	एविएशन	05 अक्टूबर 15
एस एस-49067	एच	अमन अरोरा	इंजिनियर्स	05 अक्टूबर 15

एस एस संख्या	नाम	आर्म/सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
एस एस-49068	एल	माडिशेटि पृथ्वी कृष्ण	ई एम ई
एस एस-49075	एफ	रोहन	सिग्नलस
एस एस-49077	एम	विष्णु के	सिग्नलस
एस एस-49079	एक्स	गुरतेज सिंह	ई एम ई

निम्नलिखित 15 लेडी कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग डब्ल्यू (एन टी)-16 पाठ्यक्रम की हैं, उनको सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 10 सितम्बर 2016 से 10 वर्ष के लिए, विशेष सेनानुदेश 3/एस/92, यथासंशोधित, के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) 921/डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) अल्पकालीन सेवा आयोग प्रदान किया जाता है :-

एस एस नं.	नाम	आर्म/सर्विस
एस एस-48837	एक्स	सोनल गोयल
एस एस-48842	एच	एश्वर्या बाबू
एस एस-48845	डब्ल्यू	ऐश्वर्या सोरोत
एस एस-48862	डब्ल्यू	ऑंचल दत्त
एस एस-48865	के	कस्तुरी भावना
एस एस-48921	एक्स	अलका यादव
एस एस-48930	वाई	उमा यादव
एस एस-48943	डब्ल्यू	माधवी सिंह
एस एस-48945	एफ	दीपाली भारद्वाज
एस एस-48947	एम	विजय लक्ष्मी चौधरी
एस एस-48948	पी	ललिता कंवर
एस एस-48950	एम	राजश्री रामकृष्ण
एस एस-48954	एच	नविता कश्यप
एस एस-48955	एल	नेहा मनहास
एस एस-48966	एक्स	गरिमा कुलहारी

निम्नलिखित 10 लेडी कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग (टैक)-16 पाठ्यक्रम की हैं, को सेनानुदेश 1/एस/92 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) 921/डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) लै0 के पद पर उनकी सम्मुख अंकित तिथि से पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए जो कि आफिसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रशिक्षणरत है अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही उनको दिनांक 10 सितम्बर 2016 से 10 वर्ष के लिए अल्पकालीन सेवा आयोग प्रदान किया जाता है। उन्हें दिनांक 13 सितम्बर 2015 विशेष सेनानुदेश 10/96 (सूची पत्र संख्या 9, दिनांक 01 जून 1996) के अन्तर्गत तकनीकी योग्यता हेतु एक वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा प्रन्नति के लिये दी जाती है :-

एस एस संख्या	नाम	आर्म/सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
एस एस-48970	ए	दिव्या त्यागी	इंजिनियर्स
एस एस-48976	एफ	ख्याति राठौर	सिग्नलस
एस एस-48977	के	अंजली गुप्ता	इंजिनियर्स
एस एस-48982	पी	नमिता रांगडा	इंजिनियर्स
एस एस-48995	एम	पेडाडा प्रतिभा	ई एम ई
एस एस-49009	वाई	राधिका सेन	ए एस सी

एस एस संख्या		नाम	आर्म/सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
एस एस-49025	डब्ल्यू	आरती जयकुमार	ई एम ई	05 अक्टूबर 15
एस एस-49026	वाई	वि मीना प्रियदर्शिनी	इंजिनियर्स	05 अक्टूबर 15
एस एस-49070	एच	डी निकीता	ए एस सी	05 अक्टूबर 15
एस एस-49074	वाई	नेहा त्यागी	सिग्नलस	05 अक्टूबर 15

अभिषेक तिवारी
ले. कर्नल
ए एम एस 8बी

सेना शाखा

सं. 160, दिनांक 9 जून 2017—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष नियुक्ति करने की अनुमति प्रदान करते हैं:—

प्रादेशिक सेना

पिछली तिथि से वरीयता

एस एस 39477एल पूर्व कैप्टन अशीश दुग्गल अब टी ए-43034एफ लैपटीनेन्ट अशीश दुग्गलको प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत दिनांक 27 जुलाई 2016 से लैपटीनेन्ट के पद पर इन्फैन्ट्री (टी ए) में कमीशन प्रदान किया जाता है। नियमित सेना की 14 साल 01 माह तथा 27 दिन (दिनांक 01 सितम्बर 2001 से 26 अक्टूबर 2015) की सेवा के लिए उन्हें प्रादेशिक सेना में 30 मई 2002 से लैपटीनेन्ट के पद पर वरीयता प्रदान की जाती है। पिछली तिथि से वरीयता के कारण उन्हें दिनांक 27 जुलाई 2016 से मेजर के पद पर पदोन्नत किया जाता है। उन्हें प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 के पैरा 25 (ए) तथा 38(ए) में निहित प्रावधान (संशोधित संस्करण 1976), ए वी एस सी समिति प्रतिवेदन के अनुसार भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 18(01)2006/डी (जी एस-1) दिनांक 18 दिसम्बर 2006 द्वारा यथा संशोधित, के अन्तर्गत वेतन एवम पदोन्नति में वार्षिक बढ़ोत्तरी हेतु सैद्धान्तिक वरीयता के साथ दिनांक 30 मई 2006 से कैप्टन तथा 30 मई 2010 से मेजर के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

एस एस 38512वाई पूर्व कैप्टन अनुराग शाह अब टी ए-43028एन लैपटीनेन्ट अनुराग शाह को प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत दिनांक 20 जून 2016 से लैपटीनेन्ट के पद पर इन्फैन्ट्री (टी ए) में कमीशन प्रदान किया जाता है। नियमित सेना की 05 साल तथा 29 दिन (दिनांक 01 सितम्बर 2000 से 30 सितम्बर 2005) की सेवा के लिए उन्हें प्रादेशिक सेना में 21 मई 2011 से लैपटीनेन्ट के पद पर वरीयता प्रदान की जाती है। पिछली तिथि से वरीयता के कारण उन्हें दिनांक 20 जून 2016 से कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है। उन्हें प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 के पैरा 25(ए) तथा 38(ए) में निहित प्रावधान संशोधित संस्करण 1976), ए वी एस सी समिति प्रतिवेदन के अनुसार भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 18(01)2006/डी (जी एस-1) दिनांक 18 दिसम्बर 2006 द्वारा यथा संशोधित, के अन्तर्गत वेतन एवम पदोन्नति में वार्षिक बढ़ोत्तरी हेतु सैद्धान्तिक वरीयता के साथ दिनांक 21 मई 2015 से कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

माधवेन्द्र प्रताप सिंह
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 161, दिनांक 12 जून 2017—थल सेना अनुदेश 37/78 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थाई कमीशन)

मेजर से ले. कर्नल के पद पर

निजी संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
डीआर-10621एम	मेजर	राहुल प्रताप सिंह	15-10-2016
डीआर-10634के	मेजर	सीरत रहमान	18-11-2016

निजी संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
डीआर—10635एम	मेजर	एम रीनेश	25—11—2016
डीआर—10636पी	मेजर	हर्षवर्धन बी	25—11—2016
डीआर—10637एक्स	मेजर	कुमारा सुंदरम आर	26—11—2016
डीआर—10638ए	मेजर	नरेन्द्र सिंह	01—12—2016
डीआर—10622पी	मेजर	मोहन रंगन	09—12—2016

थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधन के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:-

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अस्थाई कमीशन)

मेजर से ले0 कर्नल के पद पर

निजी संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
डी एस—12156के	मेजर	प्रदीप एस एस	20—11—2016

एच एस संधू
ब्रिगेडियर
डीडीजीडीएस (पी)

थल सेना विभाग

सं. 162, दिनांक 13 जून 2017—थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधन के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:-

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अस्थाई कमीशन)

सर्जन ले कमाण्डर से सर्जन कमाण्डर के पद पर

निजी संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
डी एस—12164एच (79080—ए)	सर्जन ले कमाण्डर पी वी एन चैतन्य पी	04—12—2016

के जी कुमार देवैया
ब्रिगेडियर
डीडीजीडीएस (पी)

सेना शाखा

सं. 163, दिनांक 14 जून 2017—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारी को सहर्ष पदोन्नत करते हैं:-

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

मेजर से ले कर्नल

पर्सनल सं0	नाम	आर्म
आई सी 62467	पृथमा पलक त्रिपाठी	ए ई सी

आई सी सं०	नाम	आर्म	ले० कर्नल दिनांक से
63185	एस संतोष	गार्ड्स मेक	14 जून 2016
63235	प्रबल श्रीवास्तवा	सिग्नलस	14 जून 2016
67354	अतुल नय्यर	सिग्नलस	15 जून 2016
63240	विपुल अग्रवाल	सिग्नलस	14 जून 2016
65889	कुणाल झाम्ब	इंफैन्ट्री	08 नवम्बर 2016
04702	संजय पाटिल	एस एल ई/एम	02 अप्रैल 2015

कप्तान से मेजर

पर्सनल सं	नाम	आर्म	मेजर दिनांक से
आई सी 72342	रोहित कुमार सिंह	आर्टी	12 जून 2016
आई सी 74868	कमल सिंह	इंजीनियर्स	11 दिसम्बर 2016
आई सी 74892	श्याम कृष्णा एस	ई एम ई	11 दिसम्बर 2016
आई सी 74975	दिवाकर पांडे	ई एम ई	11 दिसम्बर 2016
आई सी 75075	मानिक सालवान	इंजीनियर्स	11 दिसम्बर 2016
आई सी 75098	इंद्रजीत गोपे	ई एम ई	11 दिसम्बर 2016
आई सी 75203	अनुराग देवरानी	इंजीनियर्स	11 दिसम्बर 2016
आई सी 76308	आशीष शर्मा	ए ओ सी	12 दिसम्बर 2016
आई सी 76354	शिखर थापा	ए सी	12 दिसम्बर 2016
आई सी 76384	अक्षय पोसवाल	इंजीनियर्स	12 दिसम्बर 2016
एस एस 43851	योगेन्द्र सिंह	आर्टी	20 अक्टूबर 2016
एस एस 43876	बर्षा राय	ए एस सी	20 अक्टूबर 2016

ले. से कप्तान

आई सी सं.	नाम	आर्म
78077	ऋषि द्विवेदी	ए ए डी

—08 जून 2015

आई सी सं.	नाम	आर्म
79770	आशीष देशमुख	आर्टी

—13 दिसम्बर 2016

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (मैन)

ले. से कप्तान

एस.एस.सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
45725	शंकर राज आर	ए एस सी	15 सितम्बर 12	एस.एस.सी. 94(एन टी)	15 अप्रैल 13	15 अप्रैल 15
46657	कुलदीप सिंह भदौरिया	ए सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (एस.एस.सी.डब्ल्यू.)

ले. से कप्तान

एस.एस.सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
47542	मोक्षिता सिंह	ए एस सी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 12 (एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17

एस.एस.सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
47548	तेलकर नम्रता विक्रम सिंह	ए ए डी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 12 (एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47563	ऐश्वर्या सक्सेना	जे ए जी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 12 (एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47570	भूमिका सिंह राठौर	सिग्नलस	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 12 (एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47577	सुमन राय	ए एस सी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 12 (एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47579	श्रेया	ए एस सी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 12 (एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47588	भूमिका	इन्ट	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 12 (एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47590	रुचिका पाटिल	सिग्नलस	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 12 (एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47592	अक्षिता राणा	एविएशन	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 12 (एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47604	विन्सी मैथ्यु	सिग्नलस	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 12 (एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47605	प्रज्ञा सिन्हा	जैग	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 12 (एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47611	मोहिता बड़कुर	जे ए जी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 12 (एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47612	शशि यादव	ए ओ सी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 12 (एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47618	प्रिति शर्मा	ए ओ सी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 12 (एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47619	संकृप्ति चौधरी	इन्ट	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 12 (एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47623	रींकू यादव	ए ओ सी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 12 (एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47655	देवेन्द्र कौर	ए ओ सी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 12 (एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47662	रेष्मा एलिजाबेथ जान	ए ओ सी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 12 (एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47666	ज्योति चौहान	ए ओ सी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 12 (एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47675	रेणु कौशिक	ए एस सी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 12 (एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47679	प्रभजोत देवता	ए एस सी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 12 (एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47690	स्वाति यादव	ए ओ सी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 12 (एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47691	आर वैष्णवी	ए ओ सी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 12 (एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (मैन)

ले. से कप्तान

एस.एस.सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
47543	चन्द्र शेखर गुलेरिया	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47544	युवराज एन	आर्टी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47545	अंकुर कुणाल सिंह	एसी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47546	मनिन्दर पाल सिंह	एविएशन	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47547	सैयद मुर्तजा अली जाफरी	जैग	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47549	शशांक शर्मा	ए ओ सी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47550	कर्मवीर सिंह जोधा	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47551	अनुराग शर्मा	इंजिनियर्स	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47552	आदेश सिंह बिष्ट	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47553	निर्भय गोयल	ए सी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17

एस.एस.सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
47554	कार्तिक गुप्ता	मैक	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47555	नवीन गैरोला	आर्टी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47556	विनीत कुमार	सिग्नल्स	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47557	नीलान्धु रांगी	ए सी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47558	जीशन शाफी राथेर	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47559	अभिलाश सिंह	आर्टी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47560	शुभम वशिष्ठ	आर्टी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47561	माहिदे स्वपनिल विलासराव	इंट	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47562	गैपुजाई थैमेई	मैक	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47564	नवनीत जरयाल	आर्टी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47565	करन चहल	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47566	अभ्युद्या सिंह तरागी	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47567	कार्तिक दुर्गा	आर्टी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47568	सबरी पी एम	आर्टी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47569	अनिल खजुरियू	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47571	टी एन हेमनाथन	इंजिनियर्स	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47572	अनिकेत रामपाल	ए एस सी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47573	अनीस फ्रैंकलीन एफ	ई एम ई	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47574	शर्मा यश सतीश	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47575	रमन तिवाडी	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47576	सन्दीप भट्ट	इंजिनियर्स	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47578	उत्सव पाल	ए सी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47580	आशुतोष	एएडी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47581	गौरव कुमार	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47582	प्रणय पन्वर	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47583	रजनीश सिध्दी एल आर	मैक	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47584	आदित्य प्रताप सिंह	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47585	अरविन्द आर सुब्रामन्यम	जे ए जी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47586	मनोज कुमार	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47587	सैम मथाई	ए सी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47589	सुखदीप सिंह	ए ओ सी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47591	नीरज सिंह	मैक	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47593	अनिल कुमार	इंजिनियर्स	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47594	कुलकर्णी कुनाल संजीव	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47595	कट्टी सुप्रीत अशोक	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47596	अविनाश विमनका	जैग	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47597	आशुतोष कुमार सिंह	आर्टी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47598	ई अनुदीप रेड्डी	सिग्नल्स	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17

एस.एस.सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
47599	तुषार सुब्बा	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47600	निखिल वसवान	एविएशन	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47601	शशि रंजन	आर्टी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47602	जाधव अनिरुध भरत	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47603	एन्ड्रयु थोमस फुल्लर	आर्टी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47606	वरुण जे	आर्टी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47607	वरुण सहगल	आर्टी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47608	रमेश पछाई	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47609	विवेक राम एच वी	इंजिनियर्स	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47610	नवीन मान	ए एस सी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47613	गौरव अग्निहोत्री	ए एस सी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47614	सिद्धार्थ राठौर	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47615	प्रणवकुमार हनमन्त अगवाणे	एएडी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47616	मुलये ओंकार मिलिंद	आर्टी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47617	सिद्धार्थ राणा	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47620	विनायक आर्या	एविएशन	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47621	सुधन प्रीधम एम	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47622	करन मल्होत्रा	ए सी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47624	अरविन्द आर शर्मा	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47625	गगनदीप शर्मा	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47626	अजित लिम्बु	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47627	रघुराज मेनन	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47628	विवेक कुमार सिंह	एविएशन	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47629	प्रशान्त गोगोई	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47630	दर्पण सिंह सेणी	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47631	सिद्धान्त शर्मा	सिग्नल्स	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47632	नमन त्रिपाठी	आर्टी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47633	विशाल बिष्ट	ए एस सी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47634	मानस कुमार सिंह	आर्टी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47635	एम एस द्वागसांगा	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47636	सिद्धान्त सतचित हसबनिस	एएडी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47637	राज कुमार	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47638	कुलदीप सिंह राठौर	एओसी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47639	हरमनप्रीत सिंह अरोड़ा	आर्टी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47640	केदार नाथ उपाध्याय	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47641	अरविन्द त्रिवेदी	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47642	पीयूष शर्मा	एओसी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47643	राज प्रकाश	मैक	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17

एस.एस.सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
47644	अभिषेक सिंह	एसी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47646	लिकित गौड़ा पी एस	सिग्नल्स	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47647	अभिषेक गौतम	आर्टी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47648	राहुल कुमार	जे ए जी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47649	तनवीर सिंह	एएडी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47650	संजय सिंह अन्ना	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47651	अक्षय पुन्ज	मैक	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47652	उत्कर्ष गोयल	एविएशन	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47653	हरप्रीत सिंह अर्नेजा	आर्टी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47654	अनिकेत चतुर्वेदी	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47656	अमित कुमार सिंह	आर्टी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47657	आकाश जेना	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47658	गगनजीत सिंह	एसी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47659	सरफराज अहमद	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47660	सूरज गौड़	एएससी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47661	शैलेन्द्र सिंह भदौरिया	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47663	इन्द्रप्रीत सिंह	एसी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47664	राजशेखर सरकार	आर्टी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47665	भसिन विनय अनिल	एविएशन	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47667	अंकित जोशी	इन्ट	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47668	शशांक त्रिपाठी	एओसी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47669	अमित सक्सेना	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47670	गवि सुदर्शन विवेक	ईएमई	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47671	पीयूष ठाकुर	एओसी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47672	तुरगा समीर	एएससी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47673	जोशी निशान्त नितिन	आर्टी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47674	मनसतकार सिंह	एविएशन	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47676	सुमिरन सक्सेना	इंजिनियर्स	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47677	अभिषेक सिंह	मैक	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47678	एस रामाचन्द्रन	आर्टी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47680	नीतेश चौहान	जैग	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47681	प्रियंक मालविया	जे ए जी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47682	यशस्वी नरवाल	ए ओ सी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47683	पवन नेहरा	जैग	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47684	सुभाष चन्द धिलदियाल	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47685	अविनाश शेखर	जे ए जी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47686	कुशाग्र कुमार	आर्टी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47687	सौरभ कुमार सिंह	आर्टी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17

एस.एस.सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
47688	अंकुर सिंह	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47689	निर्मय भन्डारकर	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47692	अर्णव प्रतीक सिंह परमार	एएससी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47693	ध्रुव दहिया	ए ए डी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47694	अंगद मिनहास	मेक	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
47695	दलीप राणा	एसी	13 सितम्बर 14	एस.एस.सी. 98(एन टी)	13 अप्रैल 15	13 अप्रैल 17
नियमित सेना						
अल्प-कालीन सेवा कमीशन (मैन)						
ले. से कप्तान						
एस.एस.सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
47947	जगदीश चन्द्र	इन्फैन्ट्री	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47955	नवीन कुमार	इन्फैन्ट्री	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47997	विजय आर कृष्णन	एविएशन	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
48003	हेमराज काकाटी	सिग्नलस	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
48622	हितेश खड़ायत	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48624	नितिन राज सिंह	इंजिनियर्स	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48626	संजीवारेड्डी बी पाटिल	सिग्नलस	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48627	जगदीश सिंह	इंजिनियर्स	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48628	परविंदर सिंह	ए एस सी	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48630	निखिल कुमार	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48631	प्रमोद कुमार	ई एम ई	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48632	गुन्टीरेड्डी भाग्यराज	ई एम ई	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48633	अक्षय सिंह	ए सी	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48634	सतीश जी	ई एम ई	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48635	मोहम्मद हासीब खान	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48637	हरीश टी आर	आर्टी	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48638	अंकित के	आर्टी	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48639	श्रीनाथ एस	सिग्नलस	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48642	शशि कांत तिवारी	आर्टी	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48643	अजय कुमार वी	इंजिनियर्स	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48644	सौरभ लखनपाल	इंजिनियर्स	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48645	सिद्धार्थ मणि	सिग्नलस	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48646	देव प्रसाद शर्मा	ई एम ई	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48648	सतीश गुप्ता	एविएशन	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48649	जयपाल	ए ओ सी	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48650	राठोड रुपेश माणिकराव	सिग्नलस	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48654	अमित कुमार	इंजिनियर्स	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17

एस.एस.सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
48655	सिद्धार्थ मिश्रा	आर्टी	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48656	बेन्जामिन जैफरी डी	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48657	संदीप तिवारी	इंजिनियर्स	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48658	अक्षय प्रताप सिंह	इंजिनियर्स	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48659	प्रणव श्योरन	आर्टी	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48662	देश दीपक तिवारी	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48663	नन्दा गोपाल वी	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48668	सावन वर्मा	मैक	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48671	एस अनुराग मोहन	इन्ट	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48672	अभिषेक नेहरा	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48674	संदीप सिंह	इंजिनियर्स	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48675	समीत राणा	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48677	राधेश आर	ई एम ई	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48679	जेरी बर्नाड डी	ए ओ सी	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48681	राहुल सिवनाथन	एविएशन	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48682	विशाल एस नायर	इन्फैन्ट्री	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48686	अंबाट जोसफ जॉनसन	इंजिनियर्स	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48687	हेमचंद मित्थी	ए ए डी	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48688	अक्षय श्रीदेव	एविएशन	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48689	जॉनसन वरगीश कोझीकोथीकल	आर्टी	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48690	मयंक कौशिक	ई एम ई	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48691	प्रतीक राणा	ई एम ई	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48692	विवेक जी	ए एस सी	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48693	गुरजींदर सिंह	इंजिनियर्स	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48694	दिशान्त कटारिया	सिग्नलस	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48696	विभोर द्विवेदी	आर्टी	15 मार्च 15	एस.एस.सी. 44(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17

नियमित सेना

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (एस.एस.सी.डब्ल्यू.)

ले. से कप्तान

एस.एस.सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
48625	किरन दयाराकोटी	इंजिनियर्स	15 मार्च 15	एस.एस.सी.डब्ल्यू.—15(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48629	निशा एच के	ई एम ई	15 मार्च 15	एस.एस.सी.डब्ल्यू.—15(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48636	सृष्टि शर्मा	सिग्नलस	15 मार्च 15	एस.एस.सी.डब्ल्यू.—15(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48641	निर्मला कुमारी	सिग्नलस	15 मार्च 15	एस.एस.सी.डब्ल्यू.—15(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48647	अनीता शर्मा	सिग्नलस	15 मार्च 15	एस.एस.सी.डब्ल्यू.—15(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48651	तन्वी मेहता	ई एम ई	15 मार्च 15	एस.एस.सी.डब्ल्यू.—15(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48652	प्रिया दास	ई एम ई	15 मार्च 15	एस.एस.सी.डब्ल्यू.—15(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48660	सलमा बानो	ई एम ई	15 मार्च 15	एस.एस.सी.डब्ल्यू.—15(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17

48665	रेनू बाला	ई एम ई	15 मार्च 15	एस.एस.सी.डब्ल्यू—15(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48666	शिप्रा राय	इजिनियर्स	15 मार्च 15	एस.एस.सी.डब्ल्यू—15(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48667	रुचि पाठक	सिग्नलस	15 मार्च 15	एस.एस.सी.डब्ल्यू—15(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48669	आशाना शनवाल	सिग्नलस	15 मार्च 15	एस.एस.सी.डब्ल्यू—15(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48670	सृष्टि कौशिक	ए एस सी	15 मार्च 15	एस.एस.सी.डब्ल्यू—15(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48673	ज्योति कंवर शेखावत	ई एम ई	15 मार्च 15	एस.एस.सी.डब्ल्यू—15(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17
48680	साक्षी अरोड़ा	सिग्नलस	15 मार्च 15	एस.एस.सी.डब्ल्यू—15(टी)	15 अप्रैल 15	15 अप्रैल 17

एम पी शर्मा
उप निदेशक
एम एस 8सी

सेना शाखा

सं. 164, दिनांक 15 जून 2017—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

इन्फैंट्री

डोगरा रेजिमेण्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार कुलदीप सिंह	(जेसी 521304 एन)	01 जनवरी 2017
सूबेदार केवल कृष्ण	(जेसी 521357 एम)	26 जनवरी 2017*
*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 5 जनवरी 2017 से दी जायेगी)		
सूबेदार बलवीर सिंह	(जेसी 521476 एच)	1 फरवरी 2017

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार पवन कुमार	(जेसी 522036 एफ)	19 जनवरी 2017*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार दीदार सिंह	(जेसी 522039 पी)	19 जनवरी 2017*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार नरेन्द्र प्रकाश	(जेसी 522058 ए)	13 अप्रैल 2017*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार जतिन्द्र कुमार	(जेसी 522111 ए)	13 अप्रैल 2017*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार शाम सिंह	(जेसी 522261 डब्ल्यू)	3 अप्रैल 2017*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सुरेश कुमार	(जेसी 522105 एम)	8 मई 2017*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार ओम प्रकाश	(जेसी 522082 डब्ल्यू)	26 अप्रैल 2017*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 2 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार कमल कुमार	(जेसी 521752 ए)	1 मई 2017
नायब सूबेदार राकेश कुमार	(जेसी 522121 के)	1 मई 2017

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राजू राम सकलानी	(3993908वाई अब जेसी 522359 के)	6 सितम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 फरवरी 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार राकेश कुमार	(3993098एफ अब जेसी 522360 वाई)	14 सितम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार विजय कुमार	(3992581वाई अब जेसी 522361 एफ)	26 सितम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 अप्रैल 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार अमरीक सिंह	(3993917ए अब जेसी 522362 के)	7 सितम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 अप्रैल 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार सतीश कुमार	(3992589एल अब जेसी 522363 एम)	1 अक्टूबर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार कश्मीर सिंह	(3993967एल अब जेसी 522364 पी)	10 सितम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार अनूप कुमार शर्मा	(3992035एम अब जेसी 522365 एक्स)	17 अगस्त 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 मई 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार नरेन्द्र सिंह	(3991819एफ अब जेसी 522366 ए)	15 सितम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार बाबू राम	(3992310एफ अब जेसी 522367 एच)	10 सितम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जून 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार हंस राज	(3992073एच अब जेसी 522368 एल)	15 अगस्त 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जुलाई 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार राजेन्द्र सिंह	(3992118एक्स अब जेसी 522369 एन)	15 अगस्त 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जुलाई 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार पवन कुमार	(3991993एन अब जेसी 522370 एच)	1 सितम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार नरेन्द्र चन्द	(3992021एम अब जेसी 522371 एल)	15 सितम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार चमन लाल	(3992030एन अब जेसी 522372 एन)	15 सितम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार ओम प्रकाश	(3993773एच अब जेसी 522373 डब्ल्यू)	18 अगस्त 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार मनोज कुमार	(3992315ए अब जेसी 522374 वाई)	12 सितम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार कपूर चन्द	(3992319डब्ल्यू अब जेसी 522375 एफ)	10 सितम्बर 2016*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार राकेश सिंह	(3992254एन अब जेसी 522376 के)	17 अगस्त 2016*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार पवन कुमार	(3992322डब्ल्यू अब जेसी 522377 एम)	10 सितम्बर 2016*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार रमेश चन्द	(3992349एन अब जेसी 522378 पी)	10 सितम्बर 2016*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार पवन कुमार	(3992070पी अब जेसी 522379एक्स)	10 सितम्बर 2016*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार राजीव कुमार	(3186847एच अब जेसी 522380 एम)	14 सितम्बर 2016*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 4 अगस्त 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार धारु राम	(3992458डब्ल्यू अब जेसी 522381 पी)	1 अक्टूबर 2016*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 4 अगस्त 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार गिरधारी लाल	(3993127एल अब जेसी 522382 एक्स)	1 अक्टूबर 2016*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 4 अगस्त 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार निर्मल सिंह	(3992432एल अब जेसी 522383 ए)	25 अगस्त 2016*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 6 अगस्त 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार बलवीर सिंह	(3992584एम अब जेसी 522384 एच)	25 अगस्त 2016*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 6 अगस्त 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार विनोद कुमार	(3992667एक्स अब जेसी 522385 एल)	26 अगस्त 2016*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 7 अगस्त 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार विजय कुमार	(3992924के अब जेसी 522386 एन)	1 अक्टूबर 2016*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 8 अगस्त 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार अंग्रेज सिंह	(3992024ए अब जेसी 522387डब्ल्यू)	1 सितम्बर 2016*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 अगस्त 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार रुप सिंह	(3994053एन अब जेसी 522388 वाई)	28 अक्टूबर 2016*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 अगस्त 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार तिलक राज	(3995042एन अब जेसी 522389 एफ)	20 अक्टूबर 2016*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अगस्त 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार अशोक कुमार	(3992173एन अब जेसी 522390डब्ल्यू)	5 सितम्बर 2016*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 अगस्त 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार संजीव कुमार	(3394455एन अब जेसी 522391 वाई)	15 सितम्बर 2016*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार राजेश कुमार	(3394476के अब जेसी 522392 एफ)	15 सितम्बर 2016*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2016 से दी जायेगी)		

हवलदार विजय सिंह	(3394479एक्स अब जेसी 522393 के)	15 सितम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार राजेश चन्द	(3992181एम अब जेसी 522394 एम)	1 सितम्बर 2016
हवलदार सुल्तान सिंह	(3394487डब्ल्यू अब जेसी 522395 पी)	14 सितम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार जगदीश	(3394597एल अब जेसी 522396 एक्स)	14 सितम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार अशोक सिंह	(3992359एक्स अब जेसी 522397 ए)	14 सितम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार विजय सिंह	(3992428एच अब जेसी 522398 एच)	14 सितम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार गुरदीप सिंह	(3992459एच अब जेसी 522399 एल)	28 अक्टूबर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार विपन कुमार	(3188495पी अब जेसी 522400 पी)	20 अक्टूबर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार विनोद कुमार	(3994853एम अब जेसी 522401 एक्स)	20 अक्टूबर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 4 सितम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार स्वरूप सिंह	(3994965एम अब जेसी 522402 ए)	20 अक्टूबर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 सितम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार बंगाली राम	(3994056एफ अब जेसी 522403 एच)	1 नवम्बर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 सितम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार विनोद पटियाल	(3992683पी अब जेसी 522404 एल)	23 अक्टूबर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 सितम्बर 2016 से दी जायेगी)		
हवलदार अनिल कुमार	(3394693ए अब जेसी 522405 एन)	17 अक्टूबर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2016 से दी जायेगी)		

नायब सूबेदार (लिपिक एस डी) के रैंक में

हवलदार (लिपिक एस डी) चमन कुमार	(3995644एफ अब जेसी 522406डब्ल्यू)	6 अक्टूबर 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2016 से दी जायेगी)		

राजपूताना राईफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार जयपाल सिंह	(2889880एफ अब जेसी—471800डब्ल्यू)	26 जुलाई 2016/*20 अप्रैल 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 अप्रैल 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार रामू सिंह	(2891115एम अब जेसी—471801वाई)	26 जुलाई 2016/*24 अप्रैल 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 अप्रैल 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार प्रमोद सिंह तोमर	(2890666एल अब जेसी—471802एफ)	05 जुलाई 2016/*01 जून 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2016 दी जायेगी)		

नायब सूबेदार ओम प्रकाश	(2893340ए अब जेसी-471803के)	26 जुलाई 2016/*01 जून 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राजेश पवार	(2890254के अब जेसी-471804एम)	30 जुलाई 2016/*15 जून 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जून 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राम नारायण	(2891195पी अब जेसी-471805पी)	26 जुलाई 2016/*16 जून 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 जून 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार दरियावा सिंह	(2891972एम अब जेसी-471806एक्स)	26 जुलाई 2016/*18 जून 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 जून 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार जया सिंह	(2889807एच अब जेसी-471807ए)	08 अगस्त 2016/*20 जून 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जून 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार झूमर राम	(2893246डब्ल्यू अब जेसी-471808एच)	26 जुलाई 2016/*20 जून 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जून 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार छत्तू सिंह शेखावत	(2890919पी अब जेसी-471809एल)	06 अगस्त 2016/*22 जून 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 जून 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार भेंवर सिंह	(2890672वाई अब जेसी-471810ए)	16 अगस्त 2016/*24 जून 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 जून 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार भेंवर सिंह	(2890927एन अब जेसी-471811एच)	06 अगस्त 2016/*30 जून 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 जून 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सुरेन्द्र	(2889690पी अब जेसी-471812एल)	10 जुलाई 2016/*01 जुलाई 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सुभाष चौधरी	(2890388एच अब जेसी-471813एन)	01 अगस्त 2016/*01 जुलाई 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार प्रीतम सिंह शेखावत	(3995968एम अब जेसी-471814डब्ल्यू)	11 अक्टूबर 2016/*01 जुलाई 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार दशरथ	(2891902एन अब जेसी-471815वाई)	01 अगस्त 2016/*01 जुलाई 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार अनिल कुमार सिंह	(2892146वाई अब जेसी-471816एफ)	04 अगस्त 2016/*01 जुलाई 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार मोहन सिंह	(2888662डब्ल्यू अब जेसी-471817के)	05 सितम्बर 2016/*09 जुलाई 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 जुलाई 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार बिरेन्द्र सिंह	(2889161एच अब जेसी-471818एम)	15 सितम्बर 2016/*09 जुलाई 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 जुलाई 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार गजेन्द्र सिंह	(2889133डब्ल्यू अब जेसी-471819पी)	06 सितम्बर 2016/*09 जुलाई 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 जुलाई 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार रमेश कुमार	(2890396एफ अब जेसी-471820के)	07 सितम्बर 2016/*09 जुलाई 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 जुलाई 2016 दी जायेगी)		

नायब सूबेदार रोटान	(2890440ए अब जेसी-471821एम)	05 सितम्बर 2016 / *09 जुलाई 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 जुलाई 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सुमेर सिंह	(2892790एल अब जेसी-471822पी)	11 अगस्त 2016 / *10 जुलाई 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जुलाई 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार रोशन सिंह	(2889414एम अब जेसी-471823एक्स)	08 अगस्त 2016 / *12 जुलाई 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 जुलाई 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह	(2893214एन अब जेसी-471824ए)	11 अगस्त 2016 / *21 जुलाई 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 जुलाई 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सुदेश सिंह भदौरिया	(2889516एच अब जेसी-471825एच)	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार सुरेश चंद	(2893069एफ अब जेसी-471826एल)	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार राजेश	(2889216एफ अब जेसी-471827एन)	13 अगस्त 2016 / *01 अगस्त 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह	(2890575एफ अब जेसी-471828डब्ल्यू)	*01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार रनवीर सिंह	(2889579एल अब जेसी-471829वाई)	12 अगस्त 2016 / *01 अगस्त 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार विक्रम सिंह	(2890265डब्ल्यू अब जेसी-471830एन)	24 अगस्त 2016 / *01 अगस्त 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सवाई सिंह भाटी	(2890924ए अब जेसी-471831डब्ल्यू)	09 अगस्त 2016 / *01 अगस्त 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार हरी राम गोदारा	(2893936ए अब जेसी-471832वाई)	11 अगस्त 2016 / *01 अगस्त 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार नरेन्द्र पाल	(2890546एम अब जेसी-471833एफ)	12 सितम्बर 2016 / *20 अगस्त 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 अगस्त 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार रवि कुमार	(16022046एल अब जेसी-471834के)	30 सितम्बर 2016 / *24 अगस्त 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 अगस्त 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार गजे सिंह	(2890938ए अब जेसी-471835एम)	17 सितम्बर 2016 / *26 अगस्त 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 अगस्त 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार मूल सिंह	(2890980वाई अब जेसी-471836पी)	02 अक्टूबर 2016 / *26 अगस्त 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 अगस्त 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार विक्रम सिंह शेखावत	(2890025वाई अब जेसी-471837एक्स)	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार पवन कुमार	(2889764वाई अब जेसी-471838ए)	07 अक्टूबर 2016 / *01 सितम्बर 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार माही राम	(2889759एन अब जेसी-471839एच)	05 सितम्बर 2016 / *01 सितम्बर 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार बलवन्त सिंह जानी	(3995790एफ अब जेसी-471840एक्स)	02 सितम्बर 2016 / *01 सितम्बर 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार संजय कुमार	(16020180एक्स अब जेसी -471841ए)	01 सितम्बर 2016

नायब सूबेदार करतार सिंह	(2889594ए अब जेसी —471842एच)	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार अजीत सिंह	(2889689ए अब जेसी —471843एल)	12 सितम्बर 2016/*01 सितम्बर 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2016 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार हाकम सिंह सोढा	(2890630एम अब जेसी —471844एन)	05 सितम्बर 2016/*01 सितम्बर 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2016 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार सतीश कुमार	(2890648एच अब जेसी —471845डब्ल्यू)	07 अक्टूबर 2016/*01 सितम्बर 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2016 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार गोपाल राम जाखड	(2889332के अब जेसी —471846वाई)	08 सितम्बर 2016/*01 सितम्बर 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2016 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार रनबीर सिंह	(2889401पी अब जेसी —471847एफ)	08 सितम्बर 2016/*01 सितम्बर 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2016 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार रंजीत सिंह ख्यालिया	(2889588एम अब जेसी —471848के)	01 सितम्बर 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2016 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार पेमा	(2890234डब्ल्यू अब जेसी —471849एम)	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार महिपाल सिंह	(2890986ए अब जेसी—471850एफ)	26 सितम्बर 2016/*01 सितम्बर 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राज कपूर	(2890145एक्स अब जेसी—471851के)	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार अरविंद	(2889661ए अब जेसी—471852एम)	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार धरम पाल	(2889686एम अब जेसी—471853पी)	07 सितम्बर 2016/*02 सितम्बर 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 सितम्बर 2016 दी जाएगी)		
नायब सूबेदार जल सिंह	(2889715डब्ल्यू अब जेसी—471854एक्स)	24 सितम्बर 2016/*05 सितम्बर 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 सितम्बर 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार धर्मेन्द्र कुमार	(2889787ए अब जेसी—471855ए)	11 अक्टूबर 2016/*13 सितम्बर 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 सितम्बर 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार कृष्ण कुमार	(2889411वाई अब जेसी—471856एच)	04 नवम्बर 2016/*22 सितम्बर 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 सितम्बर 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार अशोक कुमार	(2890690एफ अब जेसी—471857एल)	26 अक्टूबर 2016/*01 अक्टूबर 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राकेश कुमार	(2889283एम अब जेसी—471858एन)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार अजीत सिंह	(2890236एफ अब जेसी—471859डब्ल्यू)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार बासुदेव सिंह	(2891062वाई अब जेसी—471860एल)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार गिरधारी राम	(2891710डब्ल्यू अब जेसी—471861एन)	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार सज्जन सिंह	(2892235एक्स अब जेसी—471862डब्ल्यू)	03 अक्टूबर 2016/*01 अक्टूबर 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राजेश कुमार सिंह	(2891658वाई अब जेसी—471863वाई)	19 अक्टूबर 2016/*01 अक्टूबर 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2016 दी जायेगी)		

नायब सूबेदार अशब आलम	(2893363एफ अब जेसी—471864पी)	19 अक्टूबर 2016 /*01 अक्टूबर 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राकेश कुमार	(2893121वाई अब जेसी—471865के)	19 अक्टूबर 2016 /*01 अक्टूबर 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2016 दी जायेगी)		
नायब सूबेदार महिपाल राठौर	(2888890वाई अब जेसी—471866एम)	28 अक्टूबर 2016 /*13 अक्टूबर 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 अक्टूबर 2016 दी जायेगी)		

टी. डी. प्रशांता राव
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 165, दिनांक 16 जून 2017—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियों करते हैं:-

नियमित सेना

कवचित कोर

स्थाई रिसालदार मेजर के रैंक में

रिसालदार	छोटू राम	(जेसी—243738पी)	01 मार्च 2017
रिसालदार	जरनेल सिंह	(जेसी—244056डब्ल्यू)	01 नवम्बर 2016
रिसालदार	पुष्पेन्दर सिंह शेखावत	(जेसी—243673एम)	01 मार्च 2017
रिसालदार	नरेन्द्र सिंह	(जेसी—243634एन)	01 फरवरी 2017
रिसालदार/एसकेटी	चन्द्र कान्त निर्मल	(जेसी—246131एन)	01 अप्रैल 2017
रिसालदार	देवेन्द्रा कुमार सिंह	(जेसी—243800डब्ल्यू)	01 जनवरी 2017
रिसालदार	देश राज	(जेसी—243471एल)	01 दिसम्बर 2016
रिसालदार	निमबालकर अनिल हंस राज	(जेसी—244442एच)	01 फरवरी 2017
रिसालदार	जिनेन्द्र कुमार	(जेसी—244484पी)	*02 जनवरी 2017
*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 से दी जाती है)			
रिसालदार	ओंकार सिंह	(जेसी—244127एम)	01 जनवरी 2017

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार	राजवंत सिंह	(सं. 15468635एक्स अब जेसी—247303के)	01 फरवरी 2017
दफादार	राजेश एम	(सं. 15470333के अब जेसी—247408एन)	*01 मार्च 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 से दी जाती है)			
दफादार	ज्योती पठानिया	(सं. 15470344डब्ल्यू अब जेसी—247306एक्स)	01 फरवरी 2017
दफादार/क्लर्क	रामअवतार सिंह	(सं. 15470400के अब जेसी—247360एल)	01 फरवरी 2017
दफादार	के रामू	(सं. 15470446एम अब जेसी—247304एम)	01 फरवरी 2017
दफादार	प्रभु दयाल सिंह पाल	(सं. 15470478पी अब जेसी—247307ए)	01 मार्च 2017
दफादार	राज बहादुर यादवा	(सं. 8033874एल अब जेसी—247305पी)	*31 जनवरी 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 से दी जाती है)			
दफादार	रच्चपाल सिंह	(सं. 15467972ए अब जेसी—247345डब्ल्यू)	*04 मार्च 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2017 से दी जाती है)			
दफादार/एसकेटी	सुरेन्द्र सिंह परिहार	(सं. 15468011एल अब जेसी—247353पी)	01 फरवरी 2017
दफादार/एसकेटी	रिषीपाल	(सं. 15468022एक्स अब जेसी—247354एक्स)	01 मार्च 2017

दफादार	मनोज कुमार	(सं. 15468420वाई अब जेसी-247341ए)	01 मार्च 2017
दफादार	चौहान धनराज संतराम	(सं. 15468466एफ अब जेसी-247352एम)	*07 जनवरी 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 से दी जाती है)			
दफादार	सुभास कुमार पयारा	(सं. 8033554डब्ल्यू अब जेसी-247394वाई)	*17 फरवरी 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 दिसम्बर 2016 से दी जाती है)			
दफादार	परमजीतसिंह परमार	(सं. 15467511डब्ल्यू अब जेसी-247380वाई)	*11 फरवरी 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 से दी जाती है)			
दफादार	रनवीर सिंह	(सं. 15467597ए अब जेसी-247325एच)	01 फरवरी 2017
दफादार/एसकेटी	सोरन सिंह	(सं. 15467603एच अब जेसी-247328डब्ल्यू)	01 फरवरी 2017
दफादार	लक्ष्मी नारायण थोलिया	(सं. 15467703एन अब जेसी-247385एक्स)	*22 फरवरी 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 दिसम्बर 2016 से दी जाती है)			
दफादार	राजेन्द्र प्रसाद	(सं. 15467906एक्स अब जेसी-247300डब्ल्यू)	01 जनवरी 2017
दफादार	चमकौर सिंह	(सं. 15465946ए अब जेसी-247374एल)	*02 फरवरी 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 से दी जाती है)			
दफादार	दिलावर सिंह	(सं. 15466434ए अब जेसी-247285एम)	*12 जनवरी 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 से दी जाती है)			
दफादार	बजरंग लाल	(सं. 15466836एक्स अब जेसी-247389एन)	*25 फरवरी 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 फरवरी 2017 से दी जाती है)			
दफादार	शशी कुमार	(सं. 15466901एम अब जेसी-247250डब्ल्यू)	01 जनवरी 2017
दफादार	राम दयाल सिंह बाघेल	(सं. 15467028एम अब जेसी-247336पी)	*03 फरवरी 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 से दी जाती है)			
दफादार	विनोद कुमार सिंह	(सं. 15465636पी अब जेसी-247403पी)	01 मार्च 2017
दफादार	कुलदीप	(सं. 15465744वाई अब जेसी-247382के)	*17 फरवरी 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 से दी जाती है)			
दफादार	रविन्द्रा सिंह	(सं. 15465781एम अब जेसी-247428एफ)	*08 मार्च 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 फरवरी 2017 से दी जाती है)			
दफादार	शेखावत नरेन्द्रा सिंह	(सं. 15465846पी अब जेसी-247284के)	01 जनवरी 2017
दफादार	परमजीत सिंह	(सं. 15465869डब्ल्यू अब जेसी-247326एल)	*06 फरवरी 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 जनवरी 2017 से दी जाती है)			
दफादार	राधे श्याम	(सं. 15464963एन अब जेसी-247272पी)	*26 जनवरी 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 से दी जाती है)			
दफादार	अनिल कुमार	(सं. 15465226वाई अब जेसी-247338ए)	01 मार्च 2017
दफादार	अरशद अली	(सं. 15465310वाई अब जेसी-247372ए)	*10 फरवरी 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 से दी जाती है)			
दफादार	राजेश कुमार लवनिया	(सं. 15465435डब्ल्यू अब जेसी-247395एफ)	*09 फरवरी 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 से दी जाती है)			
दफादार	जसबीर सिंह	(सं. 15465440एफ अब जेसी-247373एच)	*16 फरवरी 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 फरवरी 2017 से दी जाती है)			

दफादार	संजय सिंह	(सं. 15465471एफ अब जेसी-247391एल)	*28 फरवरी 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 से दी जाती है)			
दफादार	सत्यन्द्र सिंह	(सं. 15464549पी अब जेसी-247344एन)	01 मार्च 2017
दफादार	हरेन्द्र सिंह	(सं. 15464617एक्स अब जेसी-247402एम)	*28 फरवरी 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 से दी जाती है)			
दफादार	संजय कुमार	(सं. 15464692एफ अब जेसी-247288ए)	01 जनवरी 2017
दफादार	महावीर	(सं. 15464738वाई अब जेसी-247342एच)	01 मार्च 2017
दफादार	प्रोवश कुमार मंडल	(सं. 15464785डब्ल्यू अब जेसी-247297एफ)	*02 जनवरी 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 से दी जाती है)			
दफादार	मनभरन मल्लाह	(सं. 15464904एफ अब जेसी-247298के)	01 जनवरी 2017
दफादार	भानु प्रताप सिंह	(सं. 15464389ए अब जेसी-247317के)	01 फरवरी 2017
दफादार	मधू संकारा राव	(सं. 15464408ए अब जेसी-247393डब्ल्यू)	*10 फरवरी 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 दिसम्बर 2016 से दी जाती है)			
दफादार	नीरज कुमार	(सं. 15464482एफ अब जेसी-247335एम)	*01 फरवरी 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जनवरी 2017 से दी जाती है)			
दफादार	रविन्द्र सिंह	(सं. 15464503एम अब जेसी-247318एम)	01 फरवरी 2017
दफादार	बल राज	(सं. 15463093पी अब जेसी-247396के)	*13 फरवरी 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 से दी जाती है)			
दफादार	परदीप कुमार	(सं. 15463457डब्ल्यू अब जेसी-247420पी)	*26 फरवरी 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 फरवरी 2017 से दी जाती है)			
दफादार	अमर सिंह	(सं. 15463631एक्स अब जेसी-247273एक्स)	*30 जनवरी 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 से दी जाती है)			
दफादार	बिनोद कुमार	(सं. 15463858एल अब जेसी-247323एक्स)	01 फरवरी 2017
दफादार	सत्यवीर सिंह	(सं. 15464137एन अब जेसी-247349एम)	01 मार्च 2017
दफादार	अशोक कुमार	(सं. 15464367एफ अब जेसी-247392एन)	*09 फरवरी 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 से दी जाती है)			
दफादार	अनिल कुमार	(सं. 1099340वाई अब जेसी-247316एफ)	01 फरवरी 2017
दफादार	लवकुश सिंह	(सं. 15462088एक्स अब जेसी-247399एक्स)	*08 फरवरी 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 से दी जाती है)			
दफादार	महेन्द्र सिंह	(सं. 15462802एम अब जेसी-247332वाई)	01 जनवरी 2017
दफादार	गुरनाम सिंह	(सं. 15462822ए अब जेसी-247333एफ)	01 फरवरी 2017
दफादार	चंचल परशद	(सं. 15472053पी अब जेसी-247397एम)	*08 फरवरी 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 जनवरी 2017 से दी जाती है)			
दफादार	राकेश कुमार	(सं. 15472694एफ अब जेसी-247398पी)	*20 फरवरी 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 जनवरी 2017 से दी जाती है)			

दफादार/क्लर्क	मुन्ना लाल	(सं. 15470522एन अब जेसी-247361एन)	01 फरवरी 2017
दफादार/क्लर्क	रंजीत सिंह	(सं. 15470593पी अब जेसी-247331डब्ल्यू)	01 फरवरी 2017
दफादार	पी कन्न	(सं. 15470659ए अब जेसी-247366एम)	01 मार्च 2017
दफादार/क्लर्क	सतीश कुमार एन	(सं. 15470874एल अब जेसी-247310ए)	*14 जनवरी 2017
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 से दी जाती है)			
दफादार/क्लर्क	अजय कुमार मिश्रा	(सं. 15470953ए अब जेसी-247362डब्ल्यू)	01 फरवरी 2017
दफादार/क्लर्क	वी के सिंगाराम	(सं. 15470970ए अब जेसी-247350एफ)	01 मार्च 2017

अनुराग शर्मा
अवर सचिव

सेना शाखा

सं.166 दिनांक 19, जून 2017—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :—

नियमित सेना

आसूचना कोर

नायब सुबेदार (टीसीएल) के पद पर

रैंक	नाम	आर्मी नं	जेसी नं	पदोन्नति की तारीख
हवलदार (अब पूर्व सूबेदार)/ टीसीएल	ब्रजेन्द्र कुमार त्रिपाठी	14261456पी	जेसी-811123एन	01 सितम्बर 2003

अजय कुमार
जी. एस. ओ-1
(एम. आई-20)

सं. 167, दिनांक 20 जून 2017—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को अपना पद छोड़ने पर रैंक बनाये रखने और वर्दी पहनने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

त्यागपत्र

मेजर संदीप कक्कड़ (टीए-42624) (इन्फैन्ट्री) 25 फरवरी 2017

माधवेन्द्र प्रताप सिंह
अवर सचिव

थलसेना विभाग

सं. 168, दिनांक 21 जून 2017—राष्ट्रपति, थलसेना अनुदेश 37/78 के अधीन निम्नलिखित अधिकारी को थल सेना से सेवानिवृत्त करते हैं:—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थाई कमीशन)

सेवानिवृत्ति

निजी संख्या	रैंक	नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
डी आर-10373एफ(एएफ -19979के)	युप कैप्टन (टी एस)	(सुश्री) सुमित्रा राय	31 जनवरी 2017 (सांयः)

के जी कुमार देवैया
ब्रिगेडियर
डीडीजीडीएस (पी)

सं. 169, दिनांक 22 जून 2017—राष्ट्रपति, थलसेना अनुदेश 15/79 के अधीन निम्नलिखित अधिकारियों को थल सेना से निवृत्त करते हैं:—

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
(अल्पकालीन कमीशन)
निवृत्ति

निजी संख्या	पद	नाम	टिप्पणी
डी एस-12084एल	मेजर	साई कृष्णा	19-12-2016 (सायः)
डी एस-12448एम	कप्तान	(सुश्री) शिल्पा नायडू	08-12-2016 (प्रातः)

के जी कुमार देवेया
ब्रिगेडियर
डीडीजीडीएस (पी)

थल सेना विभाग

शुद्धि पत्र

सं. 170, दिनांक 23 जून 2017—सं—दिनांक 15 दिसम्बर 2007 एवं 28 फरवरी 2015 को भारत सरकार के राजपत्रों में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक नियमित सेना-सैनिक दन्त चिकित्सा कोर अल्पकालीन कमीशन/स्थायी कमीशन उपशीर्षक कैप्टन से मेजर एवं मेजर से ले0 कर्नल के पद पर निम्नलिखित अधिकारी के संबंध में : —

के स्थान पर —कैप्टन से मेजर

निजी संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
डी आर-10618एम	मेजर वी गोपालकृष्णान	30-06-2007

पढ़ा जाए—कैप्टन से मेजर

निजी संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
डी आर-10618एम	मेजर वी गोपालकृष्णान	30-12-2006

के स्थान पर — मेजर से ले0 कर्नल

निजी संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
डी आर-10618एम	मेजर वी गोपालकृष्णान	30-06-2014

पढ़ा जाए—मेजर से ले0 कर्नल

निजी संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
डी आर-10618एम	मेजर वी गोपालकृष्णान	30-12-2013

शुद्धि पत्र

सं. .. दिनांक 28 फरवरी 2015 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक नियमित सेना-सैनिक दन्त चिकित्सा कोर अल्पकालीन कमीशन उपशीर्षक कैप्टन से मेजर के पद पर निम्नलिखित अधिकारियों के संबंध में :—

के स्थान पर

निजी संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
डी एस-12393एन	मेजर सुखदीप सिंह	13-09-2011

पढ़ा जाए

निजी संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
डी एस-12393एन	मेजर सुखदीप सिंह	13-03-2012

एच एस संधू
ब्रिगेडियर
डीडीजीडीएस (पी)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 19th August 2017

(ARMY BRANCH)

No. 157, dated 6th June 2017—The President is pleased to make the following appointment under AI 37/78 as amended:-

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(PERMANENT SERVICE COMMISSION)

ANTEDATE OF COMMISSION

DR-10738L Maj (Ms) Summerdeep Kaur - 28 Sep 2011

With seniority for pay and promotion from 28-03-2011 (includes 06 months antedate for holding appointment as Lecturer in Genesis Institute of Dental Sciences & Research, Ferozpur, Punjab from 02 Aug 2010 to 02 Apr 2011, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 04 Aug 2012, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

The President is pleased to make the following appointments under AI 15/79 as amended:-

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(SHORT SERVICE COMMISSION)

ANTEDATE OF COMMISSION

DS-12606W Capt Umesh Kumar - 05-04-2016

With seniority for pay and promotion from 05-10-2015 (includes 06 months antedate for holding appointment as of Tutor in Sudha Rastogi College of Dental Sciences & Research, Faridabad from 04 Aug 2014 to 06 Jun 2015, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 12 Nov 2016, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12594M Capt Navjot Singh Sasan - 21-01-2016

With seniority for pay and promotion from 21-07-2015 (includes 06 months antedate for holding appointment as House Surgeon in Department of Prosthodontics, Indira Gandhi Government Dental College, Jammu from 01 Jul 2013 to 30 Jun 2014, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 11 Jun 2016, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

The President is pleased to make the following appointments for a period of 05 years under 15/79, as amended and GOI MOD letter Nos.10 (3)(1)/05/D(Med) dated 28 Oct 05 as amended: -

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

SHORT SERVICE COMMISSION

TO BE CAPTAIN (ON PROBATION)

Pers No	Rank & Name	Dt of Commission
DS-12614P	Capt Tushar Bhargava	28-12-2016
DS-12615X	Capt Kiran Srinivas Reddy S	28-12-2016
DS-12616A	Capt (Ms) Moni Kangkana Deka	28-12-2016
DS-12617H	Capt Nair Ajay Sivasankaran	28-12-2016
DS-12618L	Capt Sirsendu Ghosh	28-12-2016

Pers No	Rank & Name	Dt of Commission
DS-12619N	Capt (Ms) Ramyasri M	28-12-2016
DS-12620H	Capt Puneet Dang	28-12-2016
DS-12621L	Capt Sahil Verma	28-12-2016
DS-12622N	Capt Halavath Ramesh	28-12-2016
DS-12623W	Capt Ankur Sharma	28-12-2016
DS-12624Y	Capt Karan Padha	28-12-2016
DS-12625F	Capt (Ms) Garima Sharma	28-12-2016
DS-12626K	Capt Arvind Raghuwanshi	28-12-2016
DS-12627M	Capt R Dharani	28-12-2016
DS-12628P	Capt Aditya Rambhai Sharma	28-12-2016
DS-12629X	Capt (Ms) Shivani Narang	28-12-2016
DS-12630M	Capt Ravinder Singh	28-12-2016
DS-12631P	Capt Devashish	28-12-2016
DS-12632X	Capt Sandeep Singh Reyale	28-12-2016
DS-12633A	Capt Sagar Dahiya	28-12-2016
DS-12634H	Capt Amalendu Bikash Maity	28-12-2016
DS-12635L	Capt (Ms) Sophia Mary Antony	28-12-2016
DS-12636N	Capt (Ms) Anjali Priya	28-12-2016
DS-12637W	Capt Ramesh Rajendran	28-12-2016
DS-12638Y	Capt (Ms) Dhvani Tiwari	28-12-2016
DS-12639F	Capt Akshat Chaudhary	28-12-2016
DS-12640W	Capt (Ms) Ritty Jeba E	28-12-2016
DS-12641Y	Capt Akhil Mittal	28-12-2016
DS-12642F	Capt (Ms) Shruti Mukherjee	28-12-2016
DS-12643K	Capt Mohit Rana	28-12-2016
DS-12644M	Capt (Ms) Gauri	28-12-2016
DS-12645P	Capt (Ms) Anuja Verma	28-12-2016

KG KUMAR DEVAYYA
Brigadier
DDGDS (P)

ARMY BRANCH

No. 158, dated 7th June 2017—The President is pleased to make the following appointments under AI 15/79 as amended:-

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(SHORT SERVICE COMMISSION)

ANTEDATE OF COMMISSION

DS-12598H Capt (Ms) Anu Bharti - 21-01-2016

With seniority for pay and promotion from 21-07-2015 (includes 06 months antedate for holding appointment as Junior Resident in All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh from 17 Jul 2014 to 15 May 2015, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 11 Jun 2016, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12600P Capt Nitin Pandey - 21-01-2016

With seniority for pay and promotion from 21-07-2015 (includes 06 months antedate for holding following hospital appointments:-

Non Residential House Staff in Dr R Ahmed Dental College Hospital, Kolkata from 01 Nov 2012 to 30 Apr 2013 (06 months).

Non Residential House Staff in Calcutta National Medical College & Hospital, Kolkata from 01 May 2013 to 31 Oct 2013 (06 months).

Non Residential House Staff in Dr R Ahmed Dental College Hospital, Kolkata from 01 Apr 2014 to 30 Sep 2014 (06 months).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 11 Jun 2016, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

HS SANDHU
Brigadier
DDGDS (P)

ARMY BRANCH

No. 159, dated 8th June 2017—The President is pleased to make the following appointments :-

REGULAR ARMY

(SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Lt

The under mentioned 61 Gentlemen Cadet of SSC(NT)-102 Course are granted Short Service Commission in the rank of Lieutenant wef 10 Sep 2016 for a period of 10 years under the provisions of SAI 3/S/98, as amended, read in conjunction with GoI Letter No B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 06:-

SS No.	Name	Arm/ Service
SS-48833F	DELORENGAM HRANGBUNG ANAL	INF
SS-48836P	SURENDER SINGH	ENGRS
SS-48838A	LAKSHAY SAINI	ARTY
SS-48840X	B MANOJ KUMAR	MECH
SS-48841A	DIXIT BALI	SIGS
SS-48844N	PRAMOD JOSHI	ASC
SS-48848K	AAYUSH KAUSHAL	ARTY
SS-48849M	ABHINAV S	ARTY
SS-48853P	WELLING HERSH JAYANT	INF
SS-48854X	LANKA KIRAN KUMAR	EME
SS-48855A	AMANDEEP DELU	INF
SS-48856H	GAUTHAM KRISHNA M G	INF
SS-48858N	SANTOSH MUDALAGI	ARTY
SS-48859W	SACHIN PARMAR	AOC

SS No.	Name	Arm/ Service
SS-48861N	ANKUSH	ARTY
SS-48863Y	NISHANT SHARMA	INF
SS-48868X	BICKAR ABHIJEET RAJENDRA	ARTY
SS-48875N	PRADEEP R	ARTY
SS-48876W	MANIK SINGH	MECH
SS-48878F	HARSH GAUR	INF
SS-48879K	BONNIE UPADHYAY	INT
SS-48883M	ATUL KUMAR	EME
SS-48884P	AVISHEK PANTHRI	AVN
SS-48889N	HARI PRASAD KAIMAL	INF
SS-48890H	ASHISH VERMA	AC
SS-48891L	PRARIT SHARMA	ARTY
SS-48892N	PATIL AKSHAY VIJAY	EME
SS-48893W	LAUV KUMAR	JAG
SS-48896K	RAVIKANT MEHRA	INF
SS-48899X	SHAHBAZ SINGH JOHAL	AC
SS-48900F	AMIT KUMAR	INF
SS-48904X	ABHAY SHENOY N	MECH
SS-48906H	MOHAMMAD ANAS TALIB	AOC
SS-48908N	SANDEEP SINGH GULIA	AAD
SS-48910L	SACHIN. S	ARTY
SS-48911N	SANDEEP KUMAR	ENGRS
SS-48912W	RISHABH MISRA	ARTY
SS-48914F	ANAND RAMAKRISHNAN	INF
SS-48917P	SRIDHAR J	JAG
SS-48918X	ARJUN KRISHNAN	EME
SS-48920P	SANJOETH DANIEL BRIGHT S	AAD
SS-48923H	PRASHANTH V	ARTY
SS-48925N	SABARINATH J S	ARTY
SS-48926W	VIKAS LAMBA	INF
SS-48928F	AJAY JOON	INF
SS-48929K	ARPIT SHRIVASTAVA	AAD
SS-48932K	MANSHVI SINGH	MECH
SS-48933M	UMANG RATHOR	ARTY

SS No.	Name	Arm/ Service
SS-48935X	AVNISH KUMAR PANDEY	ENGRS
SS-48938L	SUKRITH KRISHNAN P	ARTY
SS-48940H	GURPREET SINGH HORA	INF
SS-48942N	MANMOHAN SINGH RAWAT	EME
SS-48944Y	SATVIK GROVER	JAG
SS-48949X	DWEEN PAUL DEVOOS	ARTY
SS-48951P	UTKARSH CHOUDHARY	JAG
SS-48952X	M M KIRAN GUPTA	ARTY
SS-48957W	NAVDEEP SINGH	ARTY
SS-48958Y	ABDUL IRFAN	INF
SS-48961Y	HRIDAYANSH GILL	INF
SS-48964M	ADITYA RAJ SINGH	AOC
SS-48968H	AFTAB SINGH	INF

The under mentioned 40 officers of SSC (Tech)-45 Course were granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Officer Training Academy, Chennai in the rank of Lt wef the date shown against their name. Subsequently, on successful completion of training, their Short Service Commission have been confirmed for a period of 10 years wef 10 Sep 2016, under the provisions of AI 1/93, as amended read in conjunction with GoI Letter No. B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 06 for SSCOs(Men-Tech). They have also been granted one year ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 13 Sep 2015 under SAI 1/S/94 as amended:-

SS No	Name	Arm/ Service	Date of SSC on Probation
SS-48971H	SHITHIJ SEKAR	INF	05-Oct-15
SS-48973N	RAHUL BISWAS	ASC	05-Oct-15
SS-48974W	ARUN A	SIGS	05-Oct-15
SS-48979P	SYED ASHAD AHMED	ENGRS	05-Oct-15
SS-48989Y	ADITYA SHARMA	ENGRS	05-Oct-15
SS-48992Y	AJAY KUMAR CHAND	ENGRS	05-Oct-15
SS-48994K	AVTAR SINGH	INF	05-Oct-15
SS-48998A	SHAIK AZAD HUSSAIN	ARTY	05-Oct-15
SS-48999H	ABHISHEK MAHAJAN	ARTY	05-Oct-15
SS-49000K	KANNAN S	AVN	05-Oct-15
SS-49001M	AASHIM	AVN	05-Oct-15
SS-49003X	AMIT SINGH	EME	05-Oct-15
SS-49004A	NAVNEET SINGH	ENGRS	05-Oct-15
SS-49005H	AKASH BHATLI	INF	05-Oct-15
SS-49012Y	VANSHAY KAPOOR	MECH	05-Oct-15
SS-49013F	SREEKANTH SANTHOSH	ENGRS	05-Oct-15

SS No	Name	Arm/ Service	Date of SSC on Probation
SS-49015M	HARMANJEET SINGH	INF	06-Apr-15
SS-49016P	JITHIN K AJITH	SIGS	05-Oct-15
SS-49023L	ANTERPREET SINGH	INF	06-Apr-15
SS-49028K	HEMANT SHARMA	EME	05-Oct-15
SS-49029M	GAURAV TIWARI	ARTY	05-Oct-15
SS-49030F	KARAIGANDAEASWARAN B	ARTY	05-Oct-15
SS-49033P	AKSHAY RASTOGI	MECH	05-Oct-15
SS-49036H	HARENDRA SINGH	EME	05-Oct-15
SS-49037L	A K S KOGUL	ARTY	05-Oct-15
SS-49040L	SHAHEBAZ TABUL NAIK	AC	05-Oct-15
SS-49043Y	RAVI KUMAR SINGH JADON	AOC	05-Oct-15
SS-49047P	SHUBHAM JAISWAL	ENGRS	05-Oct-15
SS-49050P	DEVESH SINGH KATIYAR	AVN	05-Oct-15
SS-49051X	ANKIT AHUJA	AVN	05-Oct-15
SS-49053H	KARTHIKEYAN V	EME	05-Oct-15
SS-49056W	DESHMUKH AJINKYA VIJAY	ENGRS	05-Oct-15
SS-49062K	DEEPAK AHLAWAT	INF	05-Oct-15
SS-49063M	ANMOL SHARMA	INF	05-Oct-15
SS-49065X	SAKTHIVEL V	AVN	05-Oct-15
SS-49067H	AMAN ARORA	ENGRS	05-Oct-15
SS-49068L	MADISETTY PRUDVI KRISHNA	EME	05-Oct-15
SS-49075F	ROHEN	SIGS	05-Oct-15
SS-49077M	VISHNU K	SIGS	14-Oct-15
SS-49079X	GURTEJ SINGH	EME	05-Oct-15

The under mentioned 15 Lady Cadets of SSCW(NT)-16 Course are granted Short Service Commission in the rank of Lieutenant wef 10 Sep 2016 for a period of 10 years under the provisions of SAI 1/S/92, as amended, read in conjunction with GoI Letter No B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 06:-

SS No.	Name	Arm/ Service
SS-48837X	SONAL GOEL	EME
SS-48842H	AISHWARYA BABU	ASC
SS-48845W	AISHWARYA SOROT	INT
SS-48862W	ANCHAL DUTT	JAG
SS-48865K	KASTURI BHAVANA	ASC
SS-48921X	ALKA YADAV	AAD
SS-48930Y	UMA YADAV	JAG

SS No.	Name	Arm/ Service
SS-48943W	MADHVI SINGH	AOC
SS-48945F	DEEPALI BHARDWAJ	AOC
SS-48947M	VIJAY LAXMI CHOUDHARY	JAG
SS-48948P	LALITA KANWAR	ASC
SS-48950M	RAJSRI RAMAKRISHNAN	INT
SS-48954H	NAVITA KASHYAP	AOC
SS-48955L	NEHA MANHAS	JAG
SS-48966X	GARIMA KULHARI	AVN

The under mentioned 10 officers of SSCW(Tech)-16 Course were granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Officer Training Academy, Chennai in the rank of Lieutenant wef the date shown against their name under the provisions of SAI 1/S/92, as amended read in conjunction with GoI Letter No. B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dated 20 Jul 06 for SSCOs(Women-Tech). Subsequently, on successful completion of training, their Short Service Commission has been confirmed for a period of 10 years wef 10 Sep 2016. They have also been granted one year ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 13 Sep 2015 under the provisions of AI 10/96 (Corrigendum No 9 dated 01 Jun 96 to SAI 1/S/92): -

SS No	Name	Arm/ Service	Date of SSC on Probation
SS-48970A	DIVYA TYAGI	ENGRS	06-Apr-15
SS-48976F	KHYATI RATHORE	SIGS	06-Apr-15
SS-48977K	ANJALI GUPTA	ENGRS	05-Oct-15
SS-48982P	NAMITA RANGRA	ENGRS	05-Oct-15
SS-48995M	PEDADA PRATHIBHA	EME	05-Oct-15
SS-49009Y	RADHIKA SEN	ASC	05-Oct-15
SS-49025W	AARTI JAYAKUMAR	EME	05-Oct-15
SS-49026Y	V MEENA PRIYADHARSHINI	ENGRS	05-Oct-15
SS-49070H	D NIKITHA	ASC	05-Oct-15
SS-49074Y	NEHA TYAGI	SIGS	05-Oct-15

ABHISHEK TEWARY

Lt Col
AMS 8B

ARMY BRANCH

No. 160, dated 9th June 2017—The President is pleased to make the following appointments :-

TERRITORIAL ARMY

ANTE DATE SENIORITY

SS-39477L Ex Capt Ashish Duggal, now TA-43034F Lt Ashish Duggal has been granted commission as an officer in the Territorial Army (Infantry) on 27 Jul 2016 in the rank of Lieutenant under the provision given in Appendix VIII of TA Regulations 1948 (Revised Edition 1976). He is also granted 14 years, 01 month and 27 days (wef 01.09.2001 to 26.10.2015) ante date seniority with effect from 30 May 2002 in the rank of Lieutenant for his former service in the Regular Army. By virtue of his ante date seniority, he is promoted as Major with effect from 27 Jul 2016. Also the officer is promoted with notional seniority for pay and promotion in the rank of Captain with effect from 30 May 2006 and Major with effect from

30 May 2010 under the provisions of Para 25 (a) & 38 (a) of TA Regulations 1948 (Revised Edition 1976) as amended vide Government of India, Ministry of Defence letter No 18(1)2006/D(GS-1) dated 18 Apr 06 consequent to recommendations of AVSC Committee report for increments of pay and promotion purpose.

SS-38512Y Ex Capt Anurag Shah, now TA-43028N Lt Anurag Shah has been granted commission as an officer in the Territorial Army (Infantry) on 20 Jun 2016 in the rank of Lieutenant under the provision given in Appendix VIII of TA Regulations 1948 (Revised Edition 1976). He is also granted 05 years and 29 days (wef 01.09.2000 to 30.09.2005) ante date seniority with effect from 21 May 2011 in the rank of Lieutenant for his former service in the Regular Army. By virtue of his ante date seniority, he is promoted as Captain with effect from 20 Jun 2016. Also the officer is promoted with notional seniority for pay and promotion in the rank of Captain with effect from 21 May 2015 under the provisions of Para 25 (a) & 38 (a) of TA Regulations 1948 (Revised Edition 1976) as amended vide Government of India, Ministry of Defence letter No. 18(1)2006/D(GS-1) dated 18 Apr 06 consequent to recommendations of AVSC Committee report for increments of pay and promotion purpose.

M P SINGH
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 161, dated 12th June 2017—The President is pleased to make the following promotions under AI 37/78 as amended :-

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

PERMANENT COMMISSION

Promotion From Maj to Lt Col

Per No	Rank	Name	Date of Promotion
DR-10621M	Maj	Rahul Pratap Singh	15-10-16
DR-10634K	Maj	Serat Rehman	18-11-16
DR-10635M	Maj	M Reenesh	25-11-16
DR-10636P	Maj	Harshavardhana B	25-11-16
DR-10637X	Maj	Kumara Sundaram R	26-11-16
DR-10638A	Maj	Narender Singh	01-12-16
DR-10622P	Maj	N Mohan Rangan	09-12-16

The President is pleased to make the following promotion under AI 15/79 as amended :-

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

SHORT SERVICE COMMISSION

Promotion from Maj to Lt Col

Per No	Rank	Name	Date of Promotion
DS-12156K	Maj	Pradeep SS	20-11-16

H S SANDHU
Brig
DDGDS

ARMY BRANCH

No. 162, dated 13th June 2017—The President is pleased to make the following promotion under AI 15/79 as amended :-

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

SHORT SERVICE COMMISSION

Promotion from Surg Lt Cdr to Surg Cdr

Per No	Rank & Name	Date of Promotion
DS-12164H (79080-A)	Surg Lt Cdr PVN Chaitanya P	04-12-16

KG KUMAR DEVAYYA
Brigadier
DDGDS

No. 163, dated 14th June 2017—The President is pleased to make the following promotions :-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj to Lt Col

PERS NO	NAME	ARMS
IC-62467	PRATHAMA PULAK TRIPATHY	AEC

—08 JUN 2015

IC NO	NAME	ARMS	DATE OF ROMOTION
63185	S SANTOSH	GUARDS MECH	14 JUN 2016
63235	PRABAL SRIVASTAVA	SIGS	14 JUN 2016
67354	ATUL NAYYAR	SIGS	15 JUN 2016
63240	VIPUL AGRAWAL	SIGS	14 JUN 2016
65889	KUNAL JHAMB	INF	08 NOV 2016
04702	SANJAY PATIL	SL E/M	02 APR 2015

Capt to be Maj

PERS NO	NAME	ARM	DATE OF SUBS MAJ
IC-72342	ROHIT KUMAR SINGH	ARTY	12 JUN 2016
IC-74868	KAMAL SINGH	ENGRS	11 DEC 2016
IC-74892	SHYAM KRISHNA S	EME	11 DEC 2016
IC-74975	DIWAKAR PANDEY	EME	11 DEC 2016
IC-75075	MANIK SALWAN	ENGRS	11 DEC 2016
IC75098	INDRAJIT GOPE	EME	11 DEC 2016
IC-75203	ANURAG DEORANI	ENGRS	11 DEC 2016
IC-76308	ASHISH SHARMA	AOC	12 DEC 2016
IC-76354	SHIKHAR THAPA	AC	12 DEC 2016
IC-76384	AKSHAY POSWAL	ENGRS	12 DEC 2016

SS-43851	YOGENDER SINGH	ARTY	20 OCT 2016
SS-43876	BARSHA RAI	ASC	20 OCT 2016

Lt to be Capt

IC No	Name	Arm/Services
78077	RISHI DWIVEDI	AAD

—08 JUN 2015

IC No	Name	Arm/Services
79770	ASHISH DESHMUKH	ARTY

—13 DEC 2016

SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)

Lt to Capt

SS No	Name	Arm	Initial Date of Seniority	Course	Adjusted Date of Seniority for Promotion	Date of grant of Subs rank of Capt
45725	SHANKAR RAJ R	ASC	15 Sep 12	SSC-94 (NT)	15 Apr 13	15 Apr 15
46657	KULDEEP SINGH BHADOURIA	AC	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16

SHORT SERVICE COMMISSION (SSCW)

Lt To Capt

SS No.	Name	Arm	Initial Date of Seniority	Course	Adjusted Date of Seniority for Promotion	Date of grant of Subs rank of Capt
47542	MOKSHITA SINGH	ASC	13 Sep 14	SSCW-12(NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47548	TALEKAR NAMRATA VIKRAMSINH	AAD	13 Sep 14	SSCW-12(NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47563	AISHWARYA SAXENA	JAG	13 Sep 14	SSCW-12(NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47570	BHUMIKA SINGH RATHORE	SIGS	13 Sep 14	SSCW-12(NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47577	SUMAN RAI	ASC	13 Sep 14	SSCW-12(NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47579	SHREYA	ASC	13 Sep 14	SSCW-12(NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47588	BHOOMIKA	INT	13 Sep 14	SSCW-12(NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47590	RUCHIKA PATIL	SIGS	13 Sep 14	SSCW-12(NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47592	EKSHITA RANA	AVN	13 Sep 14	SSCW-12(NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47604	VINCEY MATHEW	SIGS	13 Sep 14	SSCW-12(NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47605	PRAGYA SINHA	JAG	13 Sep 14	SSCW-12(NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47611	MOHITMA BADKUR	JAG	13 Sep 14	SSCW-12(NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47612	SHASHI YADAV	AOC	13 Sep 14	SSCW-12(NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47618	PRITI SHARMA	AOC	13 Sep 14	SSCW-12(NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47619	SANKRIPTI CHAUDHARY	INT	13 Sep 14	SSCW-12(NT)	13 Apr 15	13 Apr 17

SS No.	Name	Arm	Initial Date of Seniority	Course	Adjusted Date of Seniority for Promotion	Date of grant of Subs rank of Capt
47623	RINKU YADAV	AOC	13 Sep 14	SSCW-12(NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47655	DAVINDER KAUR	AOC	13 Sep 14	SSCW-12(NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47662	RESHMA ELZABETH JOHN	AOC	13 Sep 14	SSCW-12(NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47666	JYOTI CHAUHAN	AOC	13 Sep 14	SSCW-12(NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47675	RENU KAUSHIK	ASC	13 Sep 14	SSCW-12(NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47679	PRABHJOT DAVETA	ASC	13 Sep 14	SSCW-12(NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47690	SWATI YADAV	AOC	13 Sep 14	SSCW-12(NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47691	R VAISHNAVI	AOC	13 Sep 14	SSCW-12(NT)	13 Apr 15	13 Apr 17

SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)

Lt to be Capt

SS No.	Name	Arm	Initial Date of Seniority	Course	Adjusted Date of Seniority for Promotion	Date of grant of Subs rank of Capt
47543	CHANDER SHEKHAR GULERIA	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47544	YUVARAJ N	ARTY	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47545	ANKUR KUNAL SINGH	AC	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47546	MANINDER PAL SINGH	AVN	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47547	SAYED MURTAZA ALI JAFRI	JAG	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47549	SHASHANK SHARMA	AOC	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47550	KARAMVEER SINGH JODHA	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47551	ANURAG SHARMA	ENGRS	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47552	ADESH SINGH BISHT	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47553	NIRBHAY GOEL	AC	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47554	KARTIK GUPTA	MECH	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47555	NAVEEN GAIROLA	ARTY	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47556	VINEET KUMAR	SIGS	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47557	NILANSHU RANGI	AC	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47558	ZEESHAN SHAFI RATHER	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47559	ABHILASH SINGH	ARTY	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47560	SHUBHAM VASHISHTHA	ARTY	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47561	MOHITE SWAPNIL VILASRAO	INT	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47562	GAIPUIJAI THAIMEI	MECH	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47564	NAVNEET JARYAL	ARTY	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47565	KARAN CHAHAL	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17

SS No.	Name	Arm	Initial Date of Seniority	Course	Adjusted Date of Seniority for Promotion	Date of grant of Subs rank of Capt
47566	ABHUDAYA SINGH TARAGI	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47567	KARTIK DURGA	ARTY	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47568	SABARI P M	ARTY	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47569	ANIL KHAJURIA	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47571	T N HEMANATHAN	ENGRS	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47572	ANIKET RAMPAL	ASC	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47573	ANISH FRANKLIN F	EME	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47574	SHARMA YASH SATISH	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47575	RAMAN TIWADI	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47576	SANDEEP BHATT	ENGRS	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47578	UTSAV PAL	AC	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47580	ASHUTOSH	AAD	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47581	GAURAV KUMAR	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47582	PRANAY PANWAR	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47583	RAJANEESH SIDDHI L R	MECH	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47584	ADITYA PRATAP SINGH	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47585	ARVIND R SUBRAMANIAM	JAG	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47586	MANOJ KUMAR	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47587	SAM MATHAI	AC	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47589	SUKHDEEP SINGH	AOC	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47591	NEERAJ SINGH	MECH	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47593	ANIL KUMAR	ENGRS	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47594	KULKARNI KUNAL SANJEEV	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47595	KATTI SUPRIT ASHOK	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47596	AVINASH CHIMANKA	JAG	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47597	ASHUTOSH KUMAR SINGH	ARTY	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47598	E ANUDEEP REDDY	SIGS	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47599	TUSHAR SUBBA	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47600	NIKHIL VASWAN	AVN	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47601	SHASHI RANJAN	ARTY	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47602	JADHAV ANIRUDHA BHARAT	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47603	ANDREW THOMAS FULLER	ARTY	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47606	VARUN J	ARTY	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17

SS No.	Name	Arm	Initial Date of Seniority	Course	Adjusted Date of Seniority for Promotion	Date of grant of Subs rank of Capt
47607	VARUN SEHGAL	ARTY	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47608	RAMESH PACHHAI	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47609	VIVEK RAM H V	ENGRS	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47610	NAVEEN MAN	ASC	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47613	GAURAV AGNIHOTRI	ASC	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47614	SIDDARTH RATHORE	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47615	PRANAVKUMAR HANAMANT AGAWANE	AAD	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47616	MULYE OMKAR MILIND	ARTY	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47617	SIDDHARTHA RANA	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47620	VINAYAK ARYA	AVN	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47621	SUDHAN PREETHAM M	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47622	KARAN MALHOTRA	AC	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47624	ARVIND R SHARMA	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47625	GAGANDEEP SHARMA	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47626	AJIT LIMBU	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47627	RAGHURAJ MENON	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47628	VIVEK KUMAR SINGH	AVN	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47629	PRASHANTA GOGOI	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47630	DARPAN SINGH SAINI	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47631	SIDHANT SHARMA	SIGS	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47632	NAMAN TRIPATHI	ARTY	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47633	VISHAL BISHT	ASC	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47634	MANAS KUMAR SINGH	ARTY	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47635	MS DAWNGSANGA	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47636	SIDDHANT SATCHIT HASABNIS	AAD	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47637	RAJ KUMAR	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47638	KULDEEP SINGH RATHORE	AOC	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47639	HARMANPREET SINGH ARORA	ARTY	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47640	KEDAR NATH UPADHYAY	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47641	ARVIND TRIVEDI	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47642	PIYUSH SHARMA	AOC	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47643	RAJ PRAKASH	MECH	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17

SS No.	Name	Arm	Initial Date of Seniority	Course	Adjusted Date of Seniority for Promotion	Date of grant of Subs rank of Capt
47644	ABHISHEK SINGH	AC	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47646	LIKITH GOWDA P S	SIGS	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47647	ABHISHEK GAUTAM	ARTY	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47648	RAHUL KUMAR	JAG	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47649	TANVIR SINGH	AAD	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47650	SANJAY SINGH ANNA	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47651	AKSHAY PUNJ	MECH	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47652	UTKARSH GOEL	AVN	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47653	HARPREET SINGH ARNEJA	ARTY	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47654	ANIKET CHATURVEDI	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47656	AMIT KUMAR SINGH	ARTY	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47657	AKASH JENA	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47658	GAGANJIT SINGH	AC	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47659	SARFARAZ AHMED	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47660	SURAJ GAUR	ASC	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47661	SHAILENDER SINGH BHADAURIA	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47663	INDERPREET SINGH	AC	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47664	RAJSHEKHAR SARKAR	ARTY	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47665	BHASIN VINAY ANIL	AVN	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47667	ANKIT JOSHI	INT	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47668	SHASHANK TRIPATHI	AOC	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47669	AMIT SAXENA	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47670	GAVI SUDARSHAN VIVEK	EME	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47671	PIYUSH THAKUR	AOC	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47672	TURAGA SAMEER	ASC	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47673	JOSHI NISHANT NITIN	ARTY	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47674	MANSATKAR SINGH	AVN	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47676	SUMIRAN SAXENA	ENGRS	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47677	ABHISHEK SINGH	MECH	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47678	S RAMACHANDRAN	ARTY	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47680	NITESH CHAUHAN	JAG	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47681	PRIYANK MALVIYA	JAG	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17

SS No.	Name	Arm	Initial Date of Seniority	Course	Adjusted Date of Seniority for Promotion	Date of grant of Subs rank of Capt
47682	YASHASVI NARWAL	AOC	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47683	PAWAN NEHRA	JAG	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47684	SUBHASH CHAND GHILDIYAL	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47685	AVINASH SHEKHAR	JAG	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47686	KUSHAGRA KUMAR	ARTY	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47687	SAURABH KUMAR SINGH	ARTY	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47688	ANKUR SINGH	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47689	NIRBHAY BHANDARKAR	INF	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47692	ARNAV PRATEEK SINGH PARMAR	ASC	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47693	DHRUV DAHIYA	AAD	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47694	ANGAD MINHAS	MECH	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47695	DALIP RANA	AC	13 Sep 14	SSC-98 (NT)	13 Apr 15	13 Apr 17
47947	JAGDISH CHANDRA	INF	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47955	NAVEEN KUMAR	INF	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47997	VIJAY R KRISHNAN	AVN	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
48003	HEMRAJ KAKATI	SIGS	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
48622	HITESH KHARAYAT	INF	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48624	NITIN RAJ SINGH	ENGRS	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48626	SANJIVARADDI BALAPPA B PATIL	SIGS	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48627	JAGDISH SINGH DHALIWAL	ENGRS	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48628	PARVINDER SINGH	ASC	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48630	NIKHIL KUMAR	INF	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48631	PRAMOD KUMAR	EME	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48632	GUNTIREDDY BHAGYARAJ	EME	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48633	AKSHAY SINGH	AC	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48634	SATISH G	EME	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48635	MOHD HASEEB KHAN	INF	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48637	HAREESH T R	ARTY	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48638	ANKITH K	ARTY	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48639	SREENATH S	SIGS	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48642	SHASHI KANT TIWARI	ARTY	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48643	AJAY KUMAR V	ENGRS	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17

SS No.	Name	Arm	Initial Date of Seniority	Course	Adjusted Date of Seniority for Promotion	Date of grant of Subs rank of Capt
48644	SAURABH LAKHANPAL	ENGRS	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48645	SIDDHARTH MANI	SIGS	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48646	DEV PRASAD SHARMA	EME	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48648	SATISH GUPTA	AVN	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48649	JAIPAL	AOC	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48650	RATHOD RUPESH MANIKRAO	SIGS	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48654	AMIT KUMAR	ENGRS	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48655	SIDDHARTH MISRA	ARTY	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48656	BENJAMIN JEFFREY D	INF	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48657	SANDEEP TIWARI	ENGRS	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48658	AKSHAY PRATAP SINGH	ENGRS	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48659	PRANAV SHEORAN	ARTY	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48662	DESH DEEPAK TIWARI	INF	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48663	NANDA GOPAL V	INF	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48668	SAWAN VERMA	MECH	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48671	S ANURAG MOHAN	INT	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48672	ABHISHEK NEHRA	INF	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48674	SANDEEP SINGH	ENGRS	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48675	SAMIT RANA	INF	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48677	RADHESH R	EME	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48679	JERRY BERNAD D	AOC	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48681	RAHUL SIVANATHAN	AVN	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48682	VISHAL S NAIR	INF	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48686	AMBATT JOSEPH JOHNSON	ENGRS	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48687	WANGKHEM HEMCHAND MEETEI	AAD	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48688	AKSHAY SREEDEV	AVN	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48689	JOHNSON VARGHESE KOZHIKOTHICAL	ARTY	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48690	MAYANK KAUSHIK	EME	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48691	PRATEEK RANA	EME	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48692	VIVEK G	ASC	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48693	GURJINDER SINGH	ENGRS	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48694	DISHANT KATARIA	SIGS	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48696	VIBHOR DWIVEDI	ARTY	15 Mar 15	SSC-44 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17

SHORT SERVICE COMMISSION (SSCW)

Lt to be Capt

SS No.	Name	Arm	Initial Date of Seniority	Course	Adjusted Date of Seniority for Promotion	Date of grant of Subs rank of Capt
48625	KIRAN DYARAKOTI	ENGRS	15 Mar 15	SSCW-15 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48629	NISHA H K	EME	15 Mar 15	SSCW-15 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48636	SRISHTI SHARMA	SIGS	15 Mar 15	SSCW-15 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48641	NIRMALA KUMARI	SIGS	15 Mar 15	SSCW-15 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48647	ANITA SHARMA	SIGS	15 Mar 15	SSCW-15 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48651	TANVI MEHTA	EME	15 Mar 15	SSCW-15 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48652	PRIYA DAS	EME	15 Mar 15	SSCW-15 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48660	SALMA BANO	EME	15 Mar 15	SSCW-15 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48665	RENU BALA	EME	15 Mar 15	SSCW-15 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48666	SHIPRA RAI	ENGRS	15 Mar 15	SSCW-15 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48667	RUCHI PATHAK	SIGS	15 Mar 15	SSCW-15 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48669	ASHNA SHANWAL	SIGS	15 Mar 15	SSCW-15 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48670	SRISHTI KAUSHIK	ASC	15 Mar 15	SSCW-15 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48673	JYOTI KANWAR SHEKHAWAT	EME	15 Mar 15	SSCW-15 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17
48680	SAKSHI ARORA	SIGS	15 Mar 15	SSCW-15 (T)	15 Apr 15	15 Apr 17

MP SHARMA
Dy Dir
MS-8C

ARMY BRANCH

No. 164, dated 15th June 2017—The President is pleased to make the following promotions:-

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE DOGRA REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Kuldeep Singh	JC-521304N	1 st Jan 17
Sub Kewal Krishan	JC-521357M	26 th Jan 17*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 5th Jan 17 without effect on Pay & Allowances)

Sub Balvir Singh	JC-521476H	1 st Feb 17
------------------	------------	------------------------

To be Sub

Nb Sub Pawan Kumar	JC-522036F	19 th Jan 17*
--------------------	------------	--------------------------

*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1st Nov 16 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Didar Singh	JC-522039P	19 th Jan 17*
--------------------	------------	--------------------------

*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1st Nov 16 without effect on Pay & Allowances)

Nb Sub Narinder Prakash	JC-522058A	13 th Apr 17*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Mar 17 without effect on Pay & Allowances)		
Nb Sub Jatinder Kumar	JC-522111A	13 th Apr 17*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Mar 17 without effect on Pay & Allowances)		
Nb Sub Sham Singh	JC-522261W	3 rd Apr 17*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Mar 17 without effect on Pay & Allowances)		
Nb Sub Suresh Kumar	JC-522105M	8 th May 17*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 st Apr 17 without effect on Pay & Allowances)		
Nb Sub Om Parkash	JC-522082W	26 th Apr 17*
*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 2 nd Apr 17 without effect on Pay & Allowances)		
Nb Sub Kamal Kumar	JC-521752A	1 st May 17
Nb Sub Rakesh Kumar	JC-522121K	1 st May 17
To be Nb Sub		
Hav Raju Ram Saklani	(3993908Y Now JC-522359K)	6 th Sep 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 11 th Feb 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Rakesh Kumar	(3993098F Now JC-522360Y)	14 th Sep 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Mar 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Vijay Kumar	(3992581Y Now JC-522361F)	26 th Sep 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 12 th Apr 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Amrik Singh	(3993917A Now JC-522362K)	7 th Sep 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 27 th Apr 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Satish Kumar	(3992589L Now JC-522363M)	1 st Oct 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st May 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Kashmir Singh	(3993967L Now JC-522364P)	10 th Sep 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st May 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Anup Kumar Sharma	(3992035M Now JC-522365X)	17 th Aug 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 26 th May 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Narinder Singh	(3991819F Now JC-522366A)	15 th Sep 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jun 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Babu Ram	(3992310F Now JC-522367H)	10 th Sep 16*
(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 10 th Jun 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Hans Raj	(3992073H Now JC-522368L)	15 th Aug 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 10 th Jul 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Rajinder Singh	(3992118X Now JC-522369N)	15 th Aug 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 10 th Jul 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Pawan Kumar	(3991993N Now JC-522370H)	1 st Sep 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Aug 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Narinder Chand	(3992021M Now JC-522371L)	15 th Sep 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Aug 16 without effect on pay and allowances)		

Hav Chaman Lal	(3992030N Now JC-522372N)	15 Sep 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Aug 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Om Parkash	(3993773H Now JC-522373W)	18 th Aug 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Aug 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Manoj Kumar	(3992315A Now JC-522374Y)	12 th Sep 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Aug 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Kapoor Chand	(3992319W Now JC-522375F)	10 th Sep 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Aug 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Rakesh Singh	(3992254N Now JC-522376K)	17 th Aug 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Aug 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Pawan Kumar	(3992322W Now JC-522377M)	10 th Sep 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Aug 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Ramesh Chand	(3992349N Now JC-522378P)	10 th Sep 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Aug 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Pawan Kumar	(3992070P Now JC-522379X)	10 th Sep 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Aug 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Rajeev Kumar	(3186847H Now JC-522380M)	14 th Sep 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 4 th Aug 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Gharu Ram	(3992658W Now JC-522381P)	1 st Oct 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 4 th Aug 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Girdhari Lal	(3993127L Now JC-522382X)	1 st Oct 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 4 th Aug 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Nirmal Singh	(3992432L Now JC-522383A)	25 th Aug 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 6 th Aug 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Balvir Singh	(3992584M Now JC-522384H)	25 th Aug 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 6 th Aug 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Vinod Kumar	(3992667X Now JC-522385L)	26 th Aug 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 7 th Aug 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Vijay Kumar	(3992924K Now JC-522386N)	1 st Oct 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 8 th Aug 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Angrez Singh	(3992024A Now JC-522387W)	1 st Sep 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 16 th Aug 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Roop Singh	(3994053N Now JC-522388Y)	28 th Oct 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 16 th Aug 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Tilak Raj	(3995042N Now JC-522389F)	20 th Oct 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 21 st Aug 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Ashok Kumar	(3992173N Now JC-522390W)	5 th Sep 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 24 th Aug 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Sanjiv Kumar	(3394455N Now JC-522391Y)	15 th Sep 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 16 without effect on pay and allowances)		

Hav Rajesh Kumar	(3394476K Now JC-522392F)	15 th Sep 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Vijay Singh	(3394479X Now JC-522393K)	15 th Sep 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Rajesh Chand	(3992181M Now JC-522394M)	1 st Sep 16
Hav Sultan Singh	(3394487W Now JC-522395P)	14 th Sep 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Jagdish	(3394597L Now JC-522396X)	14 th Sep 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Ashok Singh	(3992359X Now JC-522397A)	14 th Sep 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Vijay Singh	(3992428H Now JC-522398H)	14 th Sep 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Gurdeep Singh	(3992459H Now JC-522399L)	28 th Oct 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Vipin Kumar	(3188495P Now JC-522400P)	20 th Oct 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Vinod Kumar	(3994853M Now JC-522401X)	20 th Oct 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 4 th Sep 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Swarup Singh	(3994965M Now JC-522402A)	20 th Oct 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 11 th Sep 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Bangali Ram	(3994056F Now JC-522403H)	1 st Nov 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 15 th Sep 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Vinod Patial	(3992683P Now JC-522404L)	23 rd Oct 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 19 th Sep 16 without effect on pay and allowances)		
Hav Anil Kumar	(3394693A Now JC-522405N)	17 th Oct 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 16 without effect on pay and allowances)		
To be Nb Sub (Clerk SD)		
Hav (Clk SD) Chaman Kumar	(3995644F Now JC-522406W)	6 th Oct 16*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 16 without effect on pay and allowances)		

THE RAJPUTANA RIFLES

To be Nb Sub

Nb Sub Jaypal Singh	(2889880F now JC-471800W)	26 Jul 2016/*20 Apr 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 th Apr 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ramu Singh	(2891115M now JC-471801Y)	26 Jul 2016/*24 Apr 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 24 th Apr 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Pramod Singh Tomar	(2890666L now JC-471802F)	05 Jul 2016/*01 Jun 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Jun 2016 without effect on pay & allces)		

Nb Sub Om Prakash	(2893340A now JC-471803K)	26 Jul 2016/*01 Jun 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Jun 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Rajesh Panwar	(2890254K now JC-471804M)	30 Jul 2016/*15 Jun 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 th Jun 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ram Narain	(2891195P now JC-471805P)	26 Jul 2016/*16 Jun 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 th Jun 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Dariyawa Singh	(2891972M now JC-471806X)	26 Jul 2016/*18 Jun 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 18 th Jun 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Jaya Singh	(2889807H now JC-471807A)	08 Aug 2016/*20 Jun 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 th Jun 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Jhumar Ram	(2893246W now JC-471808H)	26 Jul 2016/*20 Jun 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 th Jun 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Chhatu Singh Shekhawat	(2890919P now JC-471809L)	06 Aug 2016/*22 Jun 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Jun 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Bhanwar Singh	(2890672Y now JC-471810A)	16 Aug 2016/*24 Jun 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 24 th Jun 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Bhanwar Singh	(2890927N now JC-471811H)	06 Aug 2016/*30 Jun 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 30 th Jun 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Surender	(2889690P now JC-471812L)	10 Jul 2016/*01 Jul 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Jul 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Subhash Choudhary	(2890388H now JC-471813N)	01 Aug 2016/*01 Jul 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Jul 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Pritam Singh Shekhawat	(3995968M now JC-471814W)	11 Oct 2016/*01 Jul 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Jul 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Dashrath	(2891902N now JC- 471815Y)	01 Aug 2016/*01 Jul 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Jul 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Anil Kumar Singh	(2892146Y now JC-471816F)	04 Aug 2016/*01 Jul 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Jul 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Mohan Singh	(2888662W now JC-471817K)	05 Sep 2016/*09 Jul 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 09 th Jul 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Birendra Singh	(2889161H now JC-471818M)	15 Sep 2016/*09 Jul 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 09 th Jul 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Gajendra Singh	(2889133W now JC-471819P)	06 Sep 2016/*09 Jul 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 09 th Jul 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ramesh Kumar	(2890396F now JC-471820K)	07 Sep 2016/*09 Jul 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 09 th Jul 2016 without effect on pay & allces)		

Nb Sub Rotan	(2890440A now JC-471821M)	05 Sep 2016/*09 Jul 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 09 th Jul 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Sumer Singh	(2892790L now JC-471822P)	11 Aug 2016/*10 Jul 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 th Jul 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Roshan Singh	(2889414M now JC-471823X)	08 Aug 2016/*12 Jul 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 12 th Jul 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Mahendra Singh	(2893214N now JC-471824A)	11 Aug 2016/*21 Jul 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21 st Jul 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Sudhesh Singh Bhadauria	(2889516H now JC-471825H)	01 Aug 2016
Nb Sub Suresh Chand	(2893069F now JC-471826L)	01 Aug 2016
Nb Sub Rajesh	(2889216F now JC-471827N)	13 Aug 2016/*01 Aug 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Aug 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Rajendra Singh	(2890575F now JC-471828W)	01 Aug 2016
Nb Sub Ranvir Singh	(2889579L now JC-471829Y)	12 Aug 2016/*01 Aug 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Aug 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Vikram Singh	(2890265W now JC-471830N)	24 Aug 2016/*01 Aug 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Aug 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Sawai Singh Bhati	(2890924A now JC-471831W)	09 Aug 2016/01 Aug 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Aug 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Hari Ram Godara	(2893936A now JC-471832Y)	11 Aug 2016/01 Aug 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Aug 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Narendra Pal	(2890546M now JC-471833F)	12 Sep 2016/*20 Aug 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 th Aug 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ravi Kumar	(16022046L now JC-471834K)	30 Sep 2016/*24 Aug 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 24 th Aug 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Gaje Singh	(2890938A now JC-471835M)	17 Sep 2016/*26 Aug 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 26 th Aug 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Mool Singh	(2890980Y now JC-471836P)	02 Oct 2016/*26 Aug 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 26 th Aug 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Vikram Singh Shekhawat	(2890025Y now JC-471837X)	01 Sep 2016
Nb Sub Pawan Kumar	(2889764Y now JC- 471838A)	07 Oct 2016/*01 Sep 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Sep 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Mahi Ram	(2889759N now JC- 471839H)	05 Sep 2016/*01 Sep 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Sep 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Balwant Singh Jani	(3995790F now JC-471840X)	02 Sep 2016/*01 Sep 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Sep 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Sanjay Kumar	(16020180X now JC-471841A)	01 Sep 2016

Nb Sub Kartar Singh	(2889594A now JC-471842H)	01 Sep 2016
Nb Sub Ajit Singh	(2889689A now JC-471843L)	12 Sep 2016/*01 Sep 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Sep 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Hakam Singh Sodha	(2890630M now JC-471844N)	05 Sep 2016/*01 Sep 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Sep 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Satish Kumar	(2890648H now JC-471845W)	07 Oct 2016/*01 Sep 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Sep 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Gopal Ram Jakhar	(2889332K now JC-471846Y)	08 Sep 2016/*01 Sep 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Sep 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ranbir Singh	(2889401P now JC-471847F)	08 Sep 2016/*01 Sep 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Sep 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ranjeet Singh Khyaliya	(2889588M now JC-471848K)	01 Sep 2016
Nb Sub Pema	(2890234W now JC-471849M)	01 Sep 2016
Nb Sub Mahipal Singh	(2890986A now JC-471850F)	26 Sep 2016/*01 Sep 2016
Nb Sub Raj Kapoor	(2890145X now JC-471851K)	01 Sep 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Sep 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Arvind	(2889661A now JC-471852M)	01 Sep 2016
Nb Sub Dharam Pal	(2889686M now JC-471853P)	07 Sep 2016/*02 Sep 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 nd Sep 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Jal Singh	(2889715W now JC-471854X)	24 Sep 2016/*05 Sep 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 05 th Sep 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Dharmender Kumar	(2889787A now JC-471855A)	11 Oct 2016/*13 Sep 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 th Sep 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Krishan Kumar	(2889411Y now JC-471856H)	04 Nov 2016/*22 Sep 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 22 th Sep 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ashok Kumar	(2890690F now JC-471857L)	26 Oct 2016 /*01 Oct 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Oct 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Rakesh Kumar	(2889283M now JC-471858N)	01 Oct 2016
Nb Sub Ajit Singh	(2890236F now JC-471859W)	01 Oct 2016
Nb Sub Bashudev Singh	(2891062Y now JC-471860L)	01 Oct 2016
Nb Sub Girdhari Ram	(2891710W now JC-471861N)	01 Oct 2016
Nb Sub Sajjan Singh	(2892235X now JC-471862W)	03 Oct 2016/*01 Oct 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Oct 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Rajesh Kumar Singh	(2891658Y now JC-471863Y)	19 Oct 2016/*01 Oct 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Oct 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ashab Alam	(2893363F now JC-471864P)	19 Oct 2016/*01 Oct 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Oct 2016 without effect on pay & allces)		

Nb Sub Rakesh Kumar	(2893121Y now JC-471865K)	19 Oct 2016/*01 Oct 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Oct 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Mahipal Rathour	(2888890Y now JC-471866M)	28 Oct 2016/*13 Oct 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 th Oct 2016 without effect on pay & allces)		

T.D. PRASHANTH RAO

Under Secy

ARMY BRANCH

No. 165, dated 16th June 2017—The President is pleased to make the following promotions.

REGULAR ARMY

ARMD CORPS RECORDS

To be Ris Maj

RISALDAR(DVRAFV)	CHHOTU RAM	(No JC243738P)	01/03/2017
RISALDAR (GNRAFV)	JARNAIL SINGH	(No JC244056W)	01/11/2016
RISALDAR (OPRAFV)	PUSHPENDER SINGH SHEKHAWAT	(No JC243673M)	01/03/2017
RISALDAR (DVRAFV)	NARENDRA SINGH	(No JC243634N)	01/02/2017
RISALDAR (SKT)	CHANDRA KANT NIRMAL	(No JC246131N)	01/04/2017
RISALDAR (DVRAFV)	DEVENDRA KUMAR SINGH	(No JC243800W)	01/01/2017
RISALDAR (GNRAFV)	DESH RAJ	(No JC243471L)	01/12/2016
RISALDAR (OPRAFV)	NIMBALKAR ANIL HANS RAJ	(No JC244442H)	01/02/2017
RISALDAR (OPRAFV)	JETENDRA KUMAR	(No JC244484P)	*02/01/2017

*(Granted Seniority in the Rank of RIS MAJ wef 01/12/2016 without effect on pay and allowances)

RISALDAR (DVRAFV)	ONKAR SINGH	(No JC244127M)	01/01/2017
-------------------	-------------	----------------	------------

To be Nb RIS

DFR(GNRAFV)	RAJWANT SINGH	(No 15468635X Now JC247303K)	01/02/2017
DFR (DVRAFV)	RAJESH M	(No 15470333K Now JC247408N)	*01/03/2017

*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/02/2017 without effect on pay and allowances)

DFR (DVRAFV)	JYOTI PATHANIA	(No 15470344W Now JC247306X)	01/02/2017
DFR (CLKSD)	RAMAUTAR SINGH	(No 15470400K Now JC247360L)	01/02/2017
DFR (DVRAFV)	K RAMU	(No 15470446M Now JC247304M)	01/02/2017
DFR (DVRAFV)	PRABHU DAYAL SINGH PAL	(No 15470478P Now JC247307A)	01/03/2017
DFR (OPRAFV)	RAJ BAHADUR YADAVA	(No 8033874L Now JC247305P)	*31/01/2017

*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/12/2016 without effect on pay and allowances)

DFR (GNRAFV)	RACHHPAL SINGH	(No 15467972A Now JC247345W)	*04/03/2017
--------------	----------------	------------------------------	-------------

*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/03/2017 without effect on pay and allowances)

DFR (SKT)	SURENDRA SINGH PARIHAR	(No 15468011L Now JC247353P)	01/02/2017
DFR (SKT)	RISHIPAL	(No 15468022X Now JC247354X)	01/03/2017
DFR (GNRAFV)	MANOJ KUMAR	(No 15468420Y Now JC247341A)	01/03/2017

DFR (OPRAFV)	CHOUHAN DHANRAJ SANTRAM	(No 15468466F Now JC247352M)	*07/01/2017
	*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/01/2017 without effect on pay and allowances)		
DFR (OPRAFV)	SUBHAS KUMAR PAIRA	(No 8033554W Now JC247394Y)	*17/02/2017
	*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 06/12/2016 without effect on pay and allowances)		
DFR (OPRAFV)	PARAMJEET SINGH PARMAR	(No 15467511W Now JC247380Y)	*11/02/2017
	*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/02/2017 without effect on pay and allowances)		
DFR (DVRAFV)	RANVEER SINGH	(No 15467597A Now JC247325H)	01/02/2017
DFR (SKT)	SORAN SINGH	(No 15467603H Now JC247328W)	01/02/2017
DFR (GNRAFV)	LAXMI NARAYAN THOLIYA	(No 15467703N Now JC247385X)	*22/02/2017
	*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 31/12/2016 without effect on pay and allowances)		
DFR (DVRAFV)	RAJENDER PRASAD	(No 15467906X Now JC247300W)	01/01/2017
DFR (DVRAFV)	CHAMKAUR SINGH	(No 15465946A Now JC247374L)	*02/02/2017
	*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/02/2017 without effect on pay and allowances)		
DFR (DVRAFV)	DILAVER SINGH	(No 15466434A Now JC247285M)	*12/01/2017
	*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/12/2016 without effect on pay and allowances)		
DFR (DVRAFV)	BAJRANG LAL	(No 15466836X Now JC247389N)	*25/02/2017
	*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 08/02/2017 without effect on pay and allowances)		
DFR (DVRAFV)	SHASHI KUMAR	(No 15466901M Now JC247250W)	01/01/2017
DFR (OPRAFV)	RAM DAYAL SINGH BAGHEL	(No 15467028M Now JC247336P)	*03/02/2017
	*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/02/2017 without effect on pay and allowances)		
DFR (GNRAFV)	VINOD KUMAR SINGH	(No 15465636P Now JC247403P)	01/03/2017
DFR (DVRAFV)	KULDEEP	(No 15465744Y Now JC247382K)	*17/02/2017
	*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/12/2016 without effect on pay and allowances)		
DFR (DVRAFV)	RAVINDRA SINGH	(No 15465781M Now JC247428F)	*08/03/2017
	*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 08/02/2017 without effect on pay and allowances)		
DFR (GNRAFV)	SHEKHAWAT NARENDRA SINGH	(No 15465846P Now JC247284K)	01/01/2017
DFR (OPRAFV)	PARAMJIT SINGH	(No 15465869W Now JC247326L)	*06/02/2017
	*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 17/01/2017 without effect on pay and allowances)		
DFR (DVRAFV)	RADHE SHYAM	(No 15464963N Now JC247272P)	*26/01/2017
	*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/11/2016 without effect on pay and allowances)		
DFR (DVRAFV)	ANIL KUMAR	(No 15465226Y Now JC247338A)	01/03/2017
DFR (OPRAFV)	ARSAD ALI	(No 15465310Y Now JC247372A)	*10/02/2017
	*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/01/2017 without effect on pay and allowances)		
DFR (DVRAFV)	RAJESH KUMAR LAWNIYA	(No 15465435W Now JC247395F)	*09/02/2017
	*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/12/2016 without effect on pay and allowances)		
DFR (OPRAFV)	JASBIR SINGH	(No 15465440F Now JC247373H)	*16/02/2017
	*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 02/02/2017 without effect on pay and allowances)		
DFR (DVRAFV)	SANJAY SINGH	(No 15465471F Now JC247391L)	*28/02/2017
	*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/12/2016 without effect on pay and allowances)		
DFR (OPRAFV)	SATYENDRA SINGH	(No 15464549P Now JC247344N)	01/03/2017

DFR (DVRAFV)	HARENDRA SINGH	(No 15464617X Now JC247402M)	*28/02/2017
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/01/2017 without effect on pay and allowances)			
DFR (GNRAFV)	SANJAY KUMAR	(No 15464692F Now JC247288A)	01/01/2017
DFR (DVRAFV)	MAHAVIR	(No 15464738Y Now JC247342H)	01/03/2017
DFR (OPRAFV)	PROVASH KUMAR MONDAL	(No 15464785W Now JC247297F)	*02/01/2017
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/01/2017 without effect on pay and allowances)			
DFR (DVRAFV)	MANBHA RAN MALLAH	(No 15464904F Now JC247298K)	01/01/2017
DFR (DVRAFV)	BHANU PRATAP SINGH	(No 15464389A Now JC247317K)	01/02/2017
DFR (DVRAFV)	MADDU SANKARA RAO	(No 15464408A Now JC247393W)	*10/02/2017
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 20/12/2016 without effect on pay and allowances)			
DFR (DVRAFV)	NEERAJ KUMAR	(No 15464482F Now JC247335M)	*01/02/2017
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 14/01/2017 without effect on pay and allowances)			
DFR (OPRAFV)	RAVENDRA SINGH	(No 15464503M Now JC247318M)	01/02/2017
DFR (DVRAFV)	BAL RAJ	(No 15463093P Now JC247396K)	*13/02/2017
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/02/2017 without effect on pay and allowances)			
DFR (DVRAFV)	PARDIP KUMAR	(No 15463457W Now JC247420P)	*26/02/2017
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 19/02/2017 without effect on pay and allowances)			
DFR (OPRAFV)	AMAR SINGH	(No 15463631X Now JC247273X)	*30/01/2017
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/01/2017 without effect on pay and allowances)			
DFR (GNRAFV)	BINOD KUMAR	(No 15463858L Now JC247323X)	01/02/2017
DFR (OPRAFV)	SATYAVIR SINGH	(No 15464137N Now JC247349M)	01/03/2017
DFR (GNRAFV)	ASHOK KUMAR	(No 15464367F Now JC247392N)	*09/02/2017
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/12/2016 without effect on pay and allowances)			
DFR (OPRAFV)	ANIL KUMAR	(No 1099340Y Now JC247316F)	01/02/2017
DFR (DVRAFV)	LAWKUSH SINGH	(No 15462088X Now JC247399X)	*08/02/2017
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/12/2016 without effect on pay and allowances)			
DFR (DVRAFV)	MAHENDRA SINGH	(No 15462802M Now JC247332Y)	01/01/2017
DFR (DVRAFV)	GURNAM SINGH	(No 15462822A Now JC247333F)	01/02/2017
DFR (DVRAFV)	CHANCHAL PARSHED	(No 15472053P Now JC247397M)	* 08/02/2017
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 07/01/2017 without effect on pay and allowances)			
DFR (DVRAFV)	RAKESH KUMAR	(No 15472694F Now JC247398P)	20/02/2017
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 07/01/2017 without effect on pay and allowances)			
DFR (CLKSD)	MUNNA LAL	(No 15470522N Now JC247361N)	01/02/2017
DFR (CLKSD)	RANJEET SINGH	(No 15470593P Now JC247331W)	01/02/2017
DFR (GNRAFV)	P KANNAN	(No 15470659A Now JC247366M)	01/03/2017
DFR (CLKSD)	SATHEESH KUMAR N	(No 15470874L Now JC247310A)	*14/01/2017
*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/01/2017 without effect on pay and allowances)			
DFR (CLKSD)	AJAY KUMAR MISHRA	(No 15470953A Now JC247362W)	01/02/2017
DFR (CLKSD)	VK SINGARAM	(No 15470970A Now JC247350F)	01/03/2017

ANURAG SHARMA
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 166, dated 19th June 2017—The President is pleased to make the following promotion:—

REGULAR ARMY
INTELLIGENCE CORPS

To be Nb Sub (TCL)

S/No	Rank and Name	Old Army	New JC No.	Dt of Promotion
HAV	(NOW EX SUB) TCL, BRAJENDRA KUMAR TRIPATHI	14261456P	JC811123N	01 SEP 2003
				AJAY KUMAR Lt. Col. GSO 1, MI-20,

ARMY BRANCH

No. 167, dated 20th June 2017—The President is pleased to permit the under mentioned officer to retain his rank and wearing of uniform after resignation of his TA commission:—

TERRITORIAL AMRY

RESIGNATION

Maj Sandeep Kakkar	TA-42624	(Infantry)	25 Feb 2017
--------------------	----------	------------	-------------

M P SINGH
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 168, dated 21st June 2017—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire from Army Service, w.e.f. the date shown against his name under AI 37/78:—

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
PERMANENT COMMISSION
RETIREMENT

Personal No	Rank	Name	Date of Retirement
DR-10373F (AF19979-K)	Gp Capt (TS)	(Ms) Sumitra Rai	31-01-2017 (AN)

KG KUMAR DEVAYYA
Brig
DDGDS (P)

ARMY BRANCH

No. 169, dated 22nd June 2017—The President is pleased to release the undermentioned Officers from Army Service w.e.f. the dates shown against their names under AI 15/79:—

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
SHORT SERVICE COMMISSION
RELEASE

Pers No	Rank	Name	Date of Release
DS-12084L	Lt Col	Sai Krishna	19 Dec 2016 (AN)
DS-12448M	Maj	(Ms) Shilpa Nayudu	08 Dec 2016 (FN)

KG KUMAR DEVAYYA
Brig
DDGDS (P)

ARMY BRANCH
CORRIGENDA

No. 170, dated 23rd June 2017—In Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India on 15 Dec 07 and 28 Feb 2015 under the heading REGULAR ARMY- ARMY DENTAL CORPS, SHORT SERVICE COMMISSION/ PERMANENT COMMISSION sub heading Capt to be Maj and Maj to be Lt Col in respect of the undermentioned officers :—

FOR : CAPT TO BE MAJ

Pers No	Name	Dt of prom to the rank of Maj
DR-10618M	Lt Col V Gopalakrishnan	30-06-2007

READ : CAPT TO BE MAJ

Pers No	Name	Dt of prom to the rank of Maj
DR-10618M	Lt Col V Gopalakrishnan	30-12-2006

FOR : MAJ TO BE LT COL

Pers No	Name	Dt of prom to the rank of Maj
DR-10618M	Lt Col V Gopalakrishnan	30-06-2014

READ : MAJ TO BE LT COL

Pers No	Name	Dt of prom to the rank of Maj
DR-10618M	Lt Col V Gopalakrishnan	30-12-2013

No. dated 28 Feb 2015—In Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India, under the heading REGULAR ARMY-ARMY DENTAL CORPS, SHORT SERVICE COMMISSION sub heading Capt to be Maj in respect of the undermentioned officer :—

FOR:

Pers No	Name	Dt of prom to the rank of Maj
DS-12393N	Maj Sukhdeep Singh	13-09-2011

READ:

Pers No	Name	Dt of prom to the rank of Maj
DS-12393N	Maj Sukhdeep Singh	13-03-2012

HS SANDHU
Brig
DDGDS (P)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in